

## मौसम जयपुर

28.0° अधिकतम तापमान  
16.0° न्यूनतम तापमान

## बाजार टोंक बाजार

सेसेक्स 75,939.21  
-199.76 (0.26%)

निफ्टी 22,929.25  
-102.15 (0.44%)

## सर्पाफा टोंक/राज

सोना 88,470 /10g  
चांदी 1,00,500 /Kg

### संक्षिप्त समाचार

**88,400 के ऑल टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत**  
चांदी में आई 1500 रुपए की तेजी

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। शेर बाजार में हो रही गिरावट और दुनियाभर में जारी अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बाद जयपुर में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 88 हजार 400 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 99800 पर आ गई है। सर्पाफा व्यापारियों के अनुसार बढ़ती कीमत के बाद बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। जयपुर के सर्पाफा व्यापारी राहुल सोनी ने बताया कि साल 2025 में 1 जनवरी से अब तक 45 दिन में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 9600 हजार रुपए की तेजी आई है। यह रिकॉर्ड तेजी निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित तो कर रही है। लेकिन इससे सर्पाफा व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि आम जनता महंगे भाव में सोने और चांदी के आभूषण खरीदने से बच रही है। ऐसे में अगर स्टैंडर्ड सोने की कीमत में तेजी का यह सिलसिला जारी रहा।

### बढ़ता TOON!

जब मिली दुनिया की दो महाशक्तियां



## नए सीईसी के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को बैठक

राहुल शामिल होंगे; 18 फरवरी को रिटायर होंगे राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदारी संभाल

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मॉटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है।

राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर ईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। ऐसे में एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे ईसी हैं। दिल्ली चुनाव की घोषणा के वक्त बताया था रिटायरमेंट प्लान बिहार/झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मई 2022 में सीईसी नियुक्त हुए थे। उनके कार्यकाल में लोकसभा चुनाव से लेकर जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा 2022 में राष्ट्रपति चुनाव, 2023 में कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य

प्रदेश और राजस्थान चुनाव और 2025 के हालिया दिल्ली चुनाव भी शामिल हैं। जनवरी में दिल्ली चुनाव की घोषणा करते हुए उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगले चार-पांच महीने खुद को डिटॉक्सीफाई करूंगा। हिमालय जाऊंगा, मीडिया की चकाचौंध से दूर रहूंगा।

मुझे कुछ एकांत चाहिए। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने की इच्छा भी जताई थी। कार्यकाल में पक्षपात के आरोप भी लगे राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे। विपक्ष पार्टियों

ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लेता है। साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाते हुए इसके हैक किए जा सकने का भी दावा किया था।

इस पर राजीव कुमार ने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। मशीनें सुप्रीम कोर्ट सहित न्यायिक जांच के कई टेस्ट में सफल रही हैं। वहीं, चुनाव में गड़बड़ी के हर दावे की कड़ी जांच करने के बाद ही उसे खारिज किया गया। इस टेक्नोलॉजी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कायम रखा है। वोट टर्नआउट के आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर भी



चुनाव आयोग की आलोचना हुई। वहीं, दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में पार्टी और उनकी हार की पीछे राजीव कुमार और केंद्र सरकार की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था, जिसका राजीव कुमार ने खंडन किया था।



## महाकुंभ में रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे

दुनिया के किसी आयोजन में इतनी भीड़ नहीं जुटी, राहुल-प्रियंका 16 को पहुंचेंगे

बढ़ता राजस्थान

प्रयागराज (एजेंसी)। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। ब्राजील के रियो फेस्टिवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में आने वाली भीड़ इसके मुकाबले कुछ नहीं है। रियो कार्निवल 9 फरवरी से शुरू हुआ है जो 17 फरवरी तक चलेगा, इसमें रोज

करीब 20 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं 16 दिनों तक चलने वाले जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में करीब 70 लाख लोग पहुंचते हैं। महाकुंभ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, उनके आने का प्रोग्राम लगभग फाइनल हो चुका है। तैयारियों की जा रही हैं। महाकुंभ में आज फिर श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज महाकुंभ का 33वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। थोड़ी देर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा।

योगी बोले- भारत की लोक आस्था का यह अमृतकाल है

सोपान योगी ने टवीटर पर लिखा- भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मता, समता और समरसता के जीवंत प्रतीक महाकुंभ में अब तक त्रिवेणी में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भारत की कुल जनसंख्या में 110 करोड़ नागरिक स्नानतन धर्मावलंबी हैं और उसमें से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों द्वारा संगम में स्नान स्नानतन के प्रति दृढ़ होती आस्था का परिचायक है। वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का यह अमृतकाल है। एकता और आस्था के इस महायज्ञ में पवित्र ज्ञान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन।

## समरावता के आंदोलनकारी बैनर में मेरा फोटो नहीं लगाएं : किरोड़ी

कहा : मैं सरकार का हिस्सा हूँ, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। फोन टैपिंग विवाद पर बीजेपी के नोटिस का जवाब देने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के तेवर नरम पड़े हैं। अब समरावता मामले में अपनी फोटो के इस्तेमाल से भी उन्होंने मना कर दिया है। कृषि मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे फोटो का इस्तेमाल न किया जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा- मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता

गया। जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। किरोड़ी ने आगे लिखा-कृपया इससे जुड़े बैनर-पोस्टरों में मेरे फोटो व पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ। इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है।

समरावता मामले में किरोड़ी के स्टैंड के सिवासी मायने-समरावता के लोग और नरेश मीणा समर्थक विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं।



घेराव के बैनर-पोस्टर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की फोटो लगाई जा रही थी।

## केंद्र-आंदोलनकारी किसानों की मीटिंग बेनतीजा

22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता होगी; कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी शामिल होंगे

बढ़ता राजस्थान

चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की शुरुवार (14 फरवरी) को चंडीगढ़ में 5वें दौर की मीटिंग हुई। मीटिंग 28 किसान नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की सेहत पर चिंता जताई। करीब साढ़े 3 घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला।

मीटिंग के बाद डलेवाल ने कहा- मीटिंग पाजिटिव रही। अब अगली मीटिंग 22 फरवरी को होगी। 22 तारीख की मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद होंगे।

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा- किसान नेताओं के साथ हमारी

अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। हमने किसान नेताओं की सभी मांगें सुनीं। हमने उन्हें किसानों के लिए बजट में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बैठक होगी।

बता दें कि किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

### एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचे डलेवाल

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की तरफ से जगजीत डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन पंधेर ने प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की। 81 दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे डलेवाल एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचे थे।



उन्हें स्टैंड से कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। केंद्र की तरफ से केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत खुड्डियां और मंत्री लाल

चंद कटारूचक शामिल रहे। मीटिंग से पहले सरवन पंधेर ने चेतवानी दी थी कि अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो किसान दिल्ली कूच करेंगे।

## भाजपा को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा



बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। होली (14 मार्च) से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है। क्योंकि, भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है।

फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल देने की जगह पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। हालांकि, भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यक्ति लगातार दो टर्म के लिए चुना जा सकता है।

इस लिहाज से नड्डा तकनीकी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनने की जगह किसी नए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देने की बात कही है।

Tariq : 9509674415

## Mahi Car Decor

- Seat Covers • Floor Mats
- Android Players • Speakers
- Center Locking • Power Windows
- Perfumes • Ambience Light

Manufacturer of Car Seat Covers



Chacha Complex, Jalupura Link Road, M.I.Road, Jaipur

## सम्पादकीय

### भारत और फ्रांस के बीच सम्मान और विश्वास की परस्पर दोस्ती, भरोसेमंद के साथ ही रणनीतिक सहयोगी

भारत फ्रांस के करीबी साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का रिश्ता रहा है। चीन के बरक्स भारत की क्षमता बढ़ाने में सहयोग का मसला हो या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा, फ्रांस ने हर बड़े मौके पर भारत का साथ दिया है। दुनिया में तेजी से उभरती ताकत के रूप में भारत की संभावनाओं को फ्रांस पहले ही भांप चुका है। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर पनडुब्बी बनाने में सहयोग कर उसने साबित कर दिया कि वह भारत का न केवल भरोसेमंद बल्कि सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की परस्पर निकटता का प्रमाण कई बार मिल चुका है। इस बार दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु संयंत्रों को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है। फ्रांस के मारसेई में एक आशीष पत्र पर दस्तखत के बाद दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु ऊर्जा अहम है। इस लिहाज से देखें, तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण

उपयोग की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। फ्रांस न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देता रहा है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी निभाते हुए आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में भी सहयोग करता रहा है। नतीजा यह कि वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच कारोबार उन्नीस अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इससे पहले वर्ष 2000 से 2024 के मध्य फ्रांस से कोई दस अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। इस बार की प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान

भी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया है। इससे व्यापार संबंध और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। इसके अलावा दोनों देश जलवायु संकट से निपटने की दिशा में भी एक मंच पर काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत और फ्रांस ने 'इंटरनेशनल सोलर अलायंस' का गठन किया, जिसमें सो से अधिक देश शामिल किए गए थे। भारत-फ्रांस के शीर्ष नेताओं ने असेन परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में जिस तरह इस बार परस्पर सहयोग की गंभीरता से समीक्षा

की है, इससे लगता है कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जता कर साफ कर दिया है कि उनके संबंध बहुआयामी हैं। इस तरह दोनों ने दोस्ती को एक नया आयाम ही दिया है। उम्मीद यह भी है कि कृत्रिम मेधा से लेकर प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में सहयोग और मजबूत होगा। दस अहम समझौते के बाद फ्रांस एक बार फिर सच्चे दोस्त के रूप में सामने आया है। इन समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में असेन सहयोग भी मील का पत्थर साबित होगा। कृत्रिम मेधा और नवाचार की दिशा में भारत और फ्रांस ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। सुरक्षित और विश्वसनीय कृत्रिम मेधा के विकास के लिए दोनों देश अब साझा रूप से काम करेंगे। यह विकसित प्रौद्योगिकी वैश्विक हितों के लिए काम करेगी। कूल मिला कर देखें, तो भारत और फ्रांस के बीच प्रगाढ़ होते संबंध चीन और अमेरिका को संदेश देने का भी प्रयास है।

## आज का इतिहास — बढ़ता राजस्थान

- 15 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएँ**
- महान् खगोलशास्त्री गैलीलियो का जन्म 1564 में हुआ।
  - फ्रांस के खिलाफ डचों से इंग्लैंड नरेश चार्ल्स द्वितीय ने 1677 में गठबंधन किया।
  - आस्ट्रेलिया और प्रसिया के बीच 1763 में शांति संधि हुई।
  - अमेरिका में सेंट लुईस शहर की स्थापना 1764 में हुई।
  - फ्रांस ने 1798 में रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया।
  - पूँको, प्रसियन संधि के बाद प्रसिया ने 1806 में ब्रिटिश जहाजों के लिए अपने बंदरगाह बंद किये।
  - 15 फरवरी, 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टेडीबियर को मॉरिस मिश्टॉर्म द्वारा बाजार में उतारा गया।
  - ब्रिटेन की लेबर पार्टी की 1906 में स्थापना हुई।
  - अमेरिका में अनुबंध एयर मेल सेवा की 1926 में शुरुआत।
  - सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
  - बर्लिन पर ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने 1944 में बमबारी की।
  - बेलजियम में 1961 में हुए बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से लगभग 50 लोगों की जान गयी।
  - मैपल (एक प्रकार का छायादार वृक्ष) के पत्ते को 1965 में कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला।
  - भारत में 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए।
  - मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई।
  - श्रीलंका की राजधानी का कोलम्बो से जनवर्धनपुर को 1982 में स्थानांतरण।
  - तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने 1989 में अफगानिस्तान से वापसी की थी।
  - ईराक ने 1991 में कुवैत से हटने की घोषणा की।
  - परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1999 में मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा।
  - मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक वी.आर चोपड़ा को 2000 में दादासाहेब फालके पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - 15 फरवरी 2001 में इस्त्रालय में हिंसा भड़क उठी इसके साथ ही इसी दिन इस्त्रायल ने पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी सील की।
  - अफगानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़ ने 2002 में पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट-पीटकर मार डाला।
  - परियन 4 राकेट से 2003 में दूसरे चार उपग्रह 'इंटरलैस्ट' अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
  - ईरान की राजधानी तेहरान में 2005 में नमाजियों से खचाखच भरी एक मस्जिद में आग लगने से लगभग 60 लोगों की जान गयी।
  - गुजरात के जूनागढ़ स्थित स्वामीनारायण मन्दिर के पुजारी सहित चार लोगों को 2005 में सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया।
  - 15 फरवरी, साल 2006 पाकिस्तान की कैबिनेट की तरफ से दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र समझौता (साफ्ट) को स्वीकार किया गया।
  - हिन्द महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न।

## विशेष आलेख — नौनिहालों के सपनों पर हावी होते कोचिंग सेंटर



— प्रियंका सौरभ

त्रा का भलाइ आर औपचारिक शिक्षा में कोचिंग सेंटरों का प्रभाव कम हो गया है। छात्र अपनी अकादमिक पढ़ाई से पहले कोचिंग सत्रों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे व्यापक शिक्षा प्रदान करने में स्कूलों की भूमिका कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, बहुत से छात्र केवल उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल ट्यूशन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। कोचिंग सेंटर में लंबे समय तक पढ़कर कड़ी प्रतियोगिता करने वाले छात्र तनाव, चिंता और बर्नआउट का अनुभव करते हैं। कोटा के छात्रों की आत्महत्या की रिपोर्ट कोचिंग सेंटर के माहौल से होने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान को दर्शाती है। कोचिंग सेंटर अकादमिक फोकस और तैयारी की रणनीतियों पर हावी हैं, जिससे छात्रों की अपनी शिक्षा में रुचि खत्म हो जाती है। कोचिंग सेशन में भाग लेने के लिए, कई सीबीएसई स्कूलों में छात्र महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्षों के दौरान नियमित कक्षाएं छोड़ देते हैं। उच्च कोचिंग लागत आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को उच्च-गुणवत्ता की तैयारी तक पहुँचने

में रोककर शैक्षणिक अवसरों में अंतर को और बढ़ा देती है। प्रीमियम जेईई तैयारी कार्यक्रमों की लागत लाखों तक है, जो उन लोगों को अलग करती है जो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते हैं। कोचिंग उद्योग कई कारणों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है। कोचिंग की आवश्यकता उच्च-दोस्त वाली प्रवेश परीक्षाओं, जैसे कि जेईई और एनईईटी पर जोर देने से प्रेरित है। आईआईटी सीटों की सीमित संख्या के कारण, छात्र चयनित होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेते हैं। माता-पिता और छात्रों के अनुसार, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग सेंटर आवश्यक हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल ट्यूशन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। कोचिंग सेंटर में लंबे समय तक पढ़कर कड़ी प्रतियोगिता करने वाले छात्र तनाव, चिंता और बर्नआउट का अनुभव करते हैं। कोटा के छात्रों की आत्महत्या की रिपोर्ट कोचिंग सेंटर के माहौल से होने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान को दर्शाती है। कोचिंग सेंटर अकादमिक फोकस और तैयारी की रणनीतियों पर हावी हैं, जिससे छात्रों की अपनी शिक्षा में रुचि खत्म हो जाती है। कोचिंग सेशन में भाग लेने के लिए, कई सीबीएसई स्कूलों में छात्र महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्षों के दौरान नियमित कक्षाएं छोड़ देते हैं। उच्च कोचिंग लागत आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को उच्च-गुणवत्ता की तैयारी तक पहुँचने

सेंटर रैंक-केन्द्रित विज्ञापनों और सफलता की कथानकों के साथ छात्रों को आकर्षित करते हैं। अपने विज्ञापनों में, कोचिंग सेंटर अपने सर्वश्रेष्ठ छात्रों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि सफलता सुनिश्चित है। इसका सामान्य रूप से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कोचिंग सेंटरों द्वारा पाठ्यक्रम से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप छात्र अपनी नियमित शैक्षणिक पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं। कक्षा 11 और 12 के दौरान, छात्र पूरे दिन के जेईई या नीट कोचिंग सत्र में भाग लेने के लिए अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं। औपचारिक शिक्षा की वैधता कम हो जाती है क्योंकि छात्र अपना ध्यान कोचिंग सेंटरों की ओर मोड़ते हैं, जिससे शिक्षक की प्रेरणा कम हो जाती है। छात्र केवल कोचिंग सामग्री का उपयोग करते हैं और शहरी क्षेत्रों के स्कूल कक्षा में कम भागीदारी की रिपोर्ट करते हैं। परीक्षाओं में सफल होने के लिए रटने को प्रोत्साहित करके, कोचिंग सेंटर स्कूलों में सिखाई जाने वाली आलोचनात्मक सोच और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग कौशल को कमजोर कर देते हैं। प्रवेश परीक्षा अध्ययन मार्गदर्शिकाएं अक्सर वैचारिक विश्लेषण की तुलना में नियमित समस्याओं को हल करने पर अधिक जोर देती हैं। खेल, कला और पाठ्येतर गतिविधियों को प्रभावित होती हैं क्योंकि छात्र कोचिंग कक्षाओं में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। छात्र अक्सर इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करते समय स्कूल

द्वारा प्रायोजित एथलेटिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से चूक जाते हैं। परीक्षा-केन्द्रित संसाधनों तक पहुँच उच्च कोचिंग लागतों द्वारा सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप एक दोहरी प्रणाली है जहाँ केवल गरीब ही मुख्यधारा की शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में अल्प शैक्षणिक संसाधनों पर निर्भर है, जबकि अमीर छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते हैं। स्कूलों में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, निजी कोचिंग सुविधाओं पर निर्भरता कम करने के लिए स्कूलों में मुफ्त संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। विशेष कोचिंग की आवश्यकता को कम करने के लिए ज्ञान-भारी परीक्षाओं की तुलना में योग्यता-आधारित आकलन को प्राथमिकता दें। कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विषय-वस्तु के ज्ञान को तुलना में योग्यता और आलोचनात्मक सोच को प्राथमिकता देता है। स्कूल के शिक्षकों को उन्नत निर्देश और सलाह देने के लिए आवश्यक संसाधन देने के लिए शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करें। देश भर के शिक्षकों के पेरोल कौशल को बढ़ाना निम्न जैसे सरकारी कार्यक्रमों का लक्ष्य है।

## आयकर कानून के सरल होने विवाद घटेंगे



— ललित गर्ग

मौजूदा आयकर कानून की तुलना में नया आयकर कानून शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं। एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटकर 23 कर दिए गए हैं, नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मतलब यह है कि लोग आसानी से आयकर के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। यह बिल आयकर प्रावधानों को सरल और आसान बनाने के बड़े मतसद से जुड़ा है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों में दिख सकता है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को 64 साल पुराने आयकर कानून-1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रविधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स बिल-2025 पेश कर दिया। 622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि आयकर कानून-1961 में 1647 पन्ने और 819 धाराएं रही है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर कर्दाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तक की गई है। निश्चित ही नये आयकर कानून से टैक्स व्यवस्था में


पारदर्शिता और सरलता के नए दौर की शुरुआत होगी, यह आयकर कानून का नया सूत्र है, जो जटिलताओं एवं पेचिदगियों को जगह सरलता एवं सहजता की रोशनी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ से ही कम-से-कम कानूनों एवं सरल-व्यवस्था के हिमायती रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में आर्थिक क्रांति का शंखनाद अनेक मोर्चों पर हो रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बदली है बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी है। 1961 में बने आयकर कानून में बदलती जरूरत के मुताबिक नए-नए संशोधन होते रहे, जिससे इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। यह जटिलता न केवल कर्दाताओं को उलझने में डालती थी बल्कि कानूनी प्रावधानों की कई तरह से व्याख्या

अनेक उलझने एवं विवाद खड़ा करती रही है। इन जटिलताओं को हटाने का परिणाम यह हुआ कि अपने देश में टैक्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ते गये। इन लगातार बढ़ते विवादों के कारण ही इसे दुनिया की टैक्स विवादों की राजधानी कहा जाने लगा। खासकर पिछले करीब डेढ़ दशक में यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। नोबल ऐस आई कि 2023-24 तक टैक्स संबंधी मुकदमों में विवादित रकम बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसका करीब 87 प्रतिशत हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है। संभावनाएं हैं एवं सराहनीय भी है कि नये कानून के लागू होने से विवाद भी कम होंगे एवं जनता भी राहत की सांस लेगी। निश्चित ही यह कदम स्वागतयोग्य है। इस कानून को लाकर मोदी सरकार और विशेषतः वित्तमंत्री ने अपने दायित्व का इमानदारी से पालन किया है। आयकर कानून-1961 की जटिलताओं के कारण विवादों का अंवार लगा रहा है। जबकि आयकर विभाग को इन विवादों से कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जीत का उसका रेकॉर्ड बड़ा खराब है। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकाॅनॉमिक कोऑर्परेशन एंड डेवेलपमेंट (ओईसीडी) की ओर से 34 देशों में टैक्स विवादों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में टैक्स विभाग को महज 11.5 प्रतिशत मामलों में ही जीत मिली थी। ओईसीडी देशों का

## शरियसयत — बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शरियसयत कॉलम के स्टार है ओमप्रकाश गिलोत्रा। जिनका जन्म 25 अप्रैल सन 1960 को हुआ। ग्रामीण परिवेश से रहे लेकिन एन्यूक्लेशन एलएलबी तक कर खुद का फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया। ओमजी पुराने समय में अलवर में फोटोग्राफी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के मसीहा माने जाते हैं। बात उस दौर की कर रहे हैं जब फोटोग्राफी का अपना अलग क्रेज हुआ करता था। अपनी सुनहरी यादों को कागज में सिमटाए वो जीवन बड़ा की शानदार और अद्भुत था। उस शानदार जीवन के मांझी के रूप में ओमप्रकाश गिलोत्रा को जाना जाता है। संघर्ष के दिन और अलवर

की सबसे पहली क्यूएसएस कलर लैब लगाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। लेकिन पुरुषार्थी तो पुरुषार्थी समाज का गहना ही है। इसलिए पीछे मुड़ कर देखा नहीं और आगे चलते रहे। फोटो पेपर पर बनाने वाले का काम पहले जयपुर या दिल्ली जाया करता था लेकिन सबसे पहली लैब न्यूलाईट कलर लैब अलवर में ओम जी गिलोत्रा ने लगाई उसके बाद सैकड़ों की संख्या में नए बेरोजगार युवाओं ने फोटोग्राफी जैसे व्यापार को अपनाया और अपना जीवन यापन किया। ओम जी बहुत व्यवहारशील व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने मजबूत इरादों और इमानदार छवि के कारण आज भी साफ और स्वच्छ छवि के रूप में जाने जाते हैं। कर्मठता क्या



ओमप्रकाश गिलोत्रा निदेशक, न्यू लाईट कलर लैब

होती है ये इनकी जीवन शैली से सीखा जा सकता है। बीमार होने के बाद भी गजब का आत्मविश्वास है इस शख्स में। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्वल भविष्य की कामना करती है। रूपक शर्मा

## 2025\_045 a बढ़ता राजस्थान Ans. 2025\_044

7	6	8	2	3	5	1			
			6				3		
				9	4	6			
8		9	1		2			3	
		6	5	4			8	1	
4		1	9			7	6	2	
9	8	2			6		7	4	
6		7		5		2	1	8	
1	4		7		8	3	9	6	

9	6	2	1	5	3	4	8	7	
4	5	8	9	2	7	1	3	6	
3	7	1	8	6	4	5	9	2	
8	3	6	4	7	1	9	2	5	
1	2	9	3	8	5	6	7	4	
5	4	7	2	9	6	3	1	8	
2	8	4	5	1	9	7	6	3	
7	9	5	6	3	2	8	4	1	
6	1	3	7	4	8	2	5	9	

### कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आए। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

## आज का राशिकफल

रवारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई किंचित्त लक्ष्यों को पूरा करेगें। वरुण आग रह जानने चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कोने देखें, जो आगे के दिनों में खुलेंगे। वरुण और बृहस्पति का एकजुट होना आपके लिए सकारण संकेत है। वरुण की शक्ति आपके जीवन में नए अर्थ लायेगी। वरुण की शक्ति आपके जीवन में नए अर्थ लायेगी। वरुण की शक्ति आपके जीवन में नए अर्थ लायेगी।

**मेघ**  
आज आप धार्मिक काम में व्यस्त रहने वाले हैं। कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। आपको क्रिस्मत चमकने की पूरी संभावना है। दोस्तों के साथ भी अच्छे समय व्यतीत कर सकेंगे। विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है।

**वृष**  
आपको शारीरिक और मानसिक सुस्ती का अनुभव होगा। मानसिक भय भी रहेगा। माँ की तबीयत की चिंता आपको रहेगी। नॉद पूरी नहीं होने और समय पर भोजन नहीं मिलने से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है।

**मिथुन**  
किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिल सकता है। आपको रोयर-स्ट्रे के काम में आज नहीं पड़ना चाहिए। संभव हो तो यात्रा-प्रवास टालें। विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आपकी आर्थिक योजना अच्छे तरह पूरी होगी।

**कर्क**  
आज का दिन थोड़ा परेशानी से भर है। आपकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान-पान में ध्यान नहीं रखने से बीमारी के पीछे खचेंगे। मन में नेगेटिविटी को न आने दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ संभलकर रहना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहेगा।

**सिंह**  
आप प्रिय पात्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। भागीदारों के साथ बातचीत में भी वृद्धि होगी। आप अत्यंत सुंदर पोशाक, आभूषण और भोजन का आनंद ले सकेंगे। नए वाहन खरीदने की योजना बनेगी।

**कन्या**  
आपके घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अच्छे अवसर आरेंगे। काम में सफलता और प्रशंसा दोनों प्राप्त होंगी। किसी जरूरी जगह पर खर्च की संभावना है। नौकरी में आपकी प्रगत होगी। दैनिक काम में परिस्थिति आपको अनकूल होने से आप स्वस्थ रहेंगे।

**तुला**  
आज आपको सावधानीपूर्वक दिन व्यतीत करना चाहिए। सदी-बुधरा होने से आपकी तबीयत खराब होने की आशंका है। प्रिय व्यक्तियों से दूर जाना पड़ सकता है। किसी का भला करने में आपका स्वयं का नुकसान कर सकेंगे।

**वृश्चिक**  
आप गलत जगह पैसा का निवेश न करें, विशेषज्ञ की सलाह से काम करें। आपके परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहे। पारिवारिक सदस्यों और मित्रों के साथ आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे।

**धनु**  
चिंता कम करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी निकटता आपको आनंदित करेगी। अपने वैवाहिक जीवन में अधिक आत्मीयता का अनुभव करेंगे।

**मकर**  
आपको ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे। अपने सहकर्मियों एवं अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। संतान की तकलीफ चिंता का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज सादर करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है।

**कुंभ**  
आपका तन-मन स्वस्थ और आनंद में रहेगा। ऑफिस में लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। अधिकारी भी आपके काम की सराहना करेंगे। प्रोत्साहन देंगे। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

**मीन**  
आपके व्यापार-धंधे में वृद्धि होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। धंधे में संपर्क बढ़ेगा और इससे लाभ होगा। संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलने से आनंद का अनुभव करेंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे।

हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट मामले में नरेश मीणा को राहत:कोर्ट से जमानत मिली, लोकसभा चुनाव के दौरान बदसलूकी की थी बढ़ता राजस्थान

टोक (का.स.)। लोकसभा चुनाव के समय कोटा में हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी और मारपीट के एक मामले में नरेश मीणा को कोर्ट से राहत मिली है। बता दें विधानसभा उप चुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में नरेश मीणा फिलहाल टोक जेल में बंद है। एडवोकेट हरीश शर्मा ने बताया-कोटा में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रहलाद गुंजल समेत 16 नामजद व अन्य के खिलाफ राज कार्य में बाधा, हेड कॉन्स्टेबल से बदसलूकी, मारपीट का मामला नयापुरा थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में नरेश मीणा को टोक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। मीणा ने गुरुवार को कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद नरेश मीणा को जमानत दी।

#### ये था मामला

लोकसभा चुनाव के समय 24 जून 2024 को कोटा के सर्किट हाउस और कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। मामले में नयापुरा थाने के हेड कॉन्स्टेबल शेर सिंह ने भीड़ में मौजूद लोगों पर छिनाझपटी करने,मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। हेड कॉन्स्टेबल की शिकायत पर प्रहलाद गुंजल समेत 16 नामजद व अन्य के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 504, 506, 186 में नयापुरा थाने में केस दर्ज किया गया था।

## डेढ़ साल से फरार फरार हत्या के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

संत सियाराम दास की हत्या कर फरार था आरोपी

#### बढ़ता राजस्थान

मालपुरा (कृष्णचन्द्र विजय)। उपखण्ड के डिग्री स्थित भूरिया महादेव मंदिर में 29-30 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि महंत सियाराम शर्मा की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए वृताधिकारी आशिष प्रजापत ने बताया कि डिग्री पुलिस थाना क्षेत्र में डिग्री स्थित भूरिया महादेव मंदिर में 29-30 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि महंत सियाराम शर्मा की हत्या हुई थी। इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रजापत ने बताया कि इस मामले के चार आरोपी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। इस आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा 15 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार



अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में डिग्री थाना प्रभारी सत्यनारायण, हेड कॉन्स्टेबल नारायणलाल, विक्रान्त सिंह, गंगदेव, रामराज, साजिद, आलोक व हनुमान को शामिल किया गया। इस दल ने आधुनिक तकनीक की सहायता व स्थानीय सूचनाओं के बाद डेढ़ साल से फरार ओमप्रकाश उर्फ मोग्या पुत्र कंवरपाल उम्र 35 साल निवासी रामपुरिया थाना इन्द्रगढ़ जिला बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। प्रजापत ने बताया कि आरोपी संत सियाराम की हत्या के बाद से ही

अपना वेष बदलकर मजदूरी का काम कर रहा था। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में हत्या का प्रयास व चोरी/नकबजनी नकबजनी के 3 प्रकरण दर्ज हैं।

गौरतलब है कि संत सियाराम दास की हत्या के बाद डिग्री वासियों सहित कई संतो ने भी इस मामले को लेकर मांग करने के साथ साथ आन्दोलन भी किए थे।

लेकिन कल्याण जी महाराज का आर्शिवाद वृताधिकारी आशिष प्रजापत को ही मिला और मामले के एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी का श्रेय वृताधिकारी को मिल सका।

## जयपुर मुख्यालय से सवाईमाधोपुर आई पांच बसें दूसरे डिपो में भेजी, वर्कशॉप में फांक रही थी धूल

#### बढ़ता राजस्थान

सवाई माधोपुर (राकेश शर्मा)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर से भले ही सवाईमाधोपुर डिपो को आठ नई बसें भेजी हों, मगर इन बसों का मार्ग पर संचालन नहीं हो सका। डिपो में वातक व परिवारकों की कमी के चलते जयपुर मुख्यालय से भेजी गई आठ में से पांच बसों को सवाईमाधोपुर डिपो से उदरपुर व वित्तोडगढ़ डिपो में भेज दिया है। ऐसे में आमजन की परेशानी बरकरार बनी हुई है। वहीं रोडवेज के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी डिपो में चालक और परिवारकों का टोटा बना है। इससे कई मार्गों पर बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। चालक-परिवारकों के अभाव में कई रूट बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चालक-परिवारकों की कमी के चलते ही कई नई बसों को रूट पर नहीं चलाया जा सका। सवाईमाधोपुर डिपो में वर्तमान में 41 चालक एवं 33 परिवारक हैं। इसमें 16 स्थाई एवं 17



परिवारक अस्थाई लगे हैं। जबकि 13 चालक और 21 परिवारकों की कमी है। ऐसे में परिवारकों की कमी के चलते सवाईमाधोपुर से उदरपुर के लिए दो एवं सवाईमाधोपुर से वित्तोडगढ़ डिपो नहीं भेजी जा रही है।

560 नई बसें : रोडवेज ने कुछ महीनों पूर्व करीब 560 नई बसों की खरीद के आदेश दिए। पहले चरण में करीब 200 बसें रोडवेज को मिलीं। इन्हें आवश्यकानुसार प्रदेश के कई डिपो में भेजा गया, लेकिन इनमें से कई बसें करीब तीन महीने बाद भी रूट पर नहीं चल सकीं और वर्कशॉप में ही धूल फांक रही थीं।

## पीड़ित प्रतिकर बैठक : पीड़ितों को 8 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश

#### बढ़ता राजस्थान

सवाई माधोपुर (राकेश शर्मा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में शुक्रवार को देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलावारे जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतिम स्तर के चार एवं अंतिम स्तर के दो प्रकरण सहित कुल 06 प्रकरणों में प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लिखित थे। जिसमें समिति द्वारा जीवन हानि (हत्या) के अंतिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से 5.10 लाख रुपये एवं अंतिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में 2.50 लाख रुपये तथा हत्या के प्रयास के अंतिम स्तर के एक प्रकरण में 40000 रुपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। इस प्रकार सर्वसम्मति से तीन प्रकरणों में कुल 8 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किए। इस अवसर पर पंकज नरुका न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समीक्षा गीतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुन्दरलाल बंशीवाल विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय, आशुतोष सिंह आदा मुक्या न्यायिक मजिस्ट्रेट, शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, उमाशंकर शर्मा अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक उपस्थित रहे।

## राज्य सरकार आम जन से जुड़ी जन समस्याओं का त्वरित समाधान कर राहत प्रदान कर रही है : कन्हैयालाल चौधरी

जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत जलदाय मंत्री ने क्षेत्र के छः गांवों में लगाया जनता दरबार

#### बढ़ता राजस्थान

मालपुरा (कृष्णचन्द्र विजय)। प्रदेश के जलदाय मंत्री एवं मालपुरा टोडारायसिंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार आम जन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने को लेकर जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम रखा है।

चौधरी शुक्रवार को राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम दिन क्षेत्र के तिलांजु, केरवालिया, कलमण्डा, डूंगरीकला, टोडरी व बजे अम्बापुर का दौरा कर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उमड़े ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर आम जन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान चाहती है। इसी को लेकर सरकार ने जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। चौधरी ने कहा कि कार्यक्रमों में आम जन की ओर से प्राप्त समस्याओं के प्रार्थना पत्रों पर



मौजूद सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश प्रदान करवाए जा रहे हैं। चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों व बताई समस्याओं का शीघ्र समाधान करवा कर राहत प्रदान की जाएगी। चौधरी ने अपने दौरे का शुभारम्भ तिलांजु से किया। यहां ग्रामीणों ने तिलांजु ग्राम की मुख्य मुख्य समस्याओं संबंधी

प्रार्थना पत्र जलदाय मंत्री को सौंपे। इसके बाद जलदाय मंत्री केरवालिया होते हुए कलमंडा पहुंचे यहां पूर्व प्रधान प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच रोडूलाल चौधरी ने टोक से नानेर होते हुए कलमण्डा, डूंगरीकला, टोडरी होते मालपुरा रोडवेज बस को शुरू करने, राउमावि कलमण्डा में पानी भराव की समस्या का स्थाई समाधान करवाने की मांग रखी। वहीं

हेमराजपुरी व किशन कुम्हार ने गांव के मुख्य रास्ते पर पानी भराव की समस्या का समाधान करवाने में सहायता बंधे की मरम्मत करवाने की मांग रखी। वहीं जलदाय मंत्री के डूंगरीकला में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में सरपंच शंकरलाल भट्टाना ने नदी के रास्ते पर पुलिया निर्माण करवाने, गुंजा तक समर्पक सड़क निर्माण करवाने, गांव के मुख्य

# सुसाइड रोकने के लिए लगाया गया जाल दो वर्ष में ही चल बसा पाली ब्रिज पर लगाया था आत्महत्याओं को रोकने के लिए

#### बढ़ता राजस्थान

सवाई माधोपुर (राकेश शर्मा)। खण्डार क्षेत्र में सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए टोक चिरगांव नेशनल हाइवे 552 पर राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित पाली ब्रिज पर लगाया गया लोहे का जाल दो वर्ष में ही टूट गया है। ऐसे में यहां फिर से आत्महत्याओं की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभागीय अनदेखी के चलते फिर से ब्रिज सुसाइड प्वाइंट बन सकता है। बता दें कि पाली चम्बल ब्रिज पर क्षतिग्रस्त जाल को हटाकर नया जाल लगाने से ब्रिज पर होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं पर लगाया जा सकता है। राजस्थान मध्यप्रदेश के ग्रामीणों ने दोनों जिलों के जिला कलेक्टर व नेशनल हाइवे अधिकारियों से ब्रिज पर जाल लगाने की मांग की है।

1996 से शुरू हो गया था आवागमन : जानकारी के अनुसार



नेशनल हाइवे पर स्थित पाली ब्रिज से वर्ष 1996 में आवागमन शुरू हो गया था। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को ब्रिज की सुविधा मिलने के बाद पाली ब्रिज से करीब दो दर्जन से अधिक लोगों ने चम्बल में छलांग लगा दी थी। इनमें से करीब एक दर्जन युवक-युवतियों की मौत हो गई थी। सुसाइड प्वाइंट बनने की वजह से

ग्रामीणों की ओर से कई बार राजस्थान व मध्यप्रदेश के उच्चाधिकारियों को पुल के दोनों ओर लोहे के जाल लगाने की मांग की गई थी। इस पर करीब ढाई दशक बाद प्रशासन चेता और ब्रिज पर जाल लगाने का सपना पूरा हो पाया। जाल लगाने के बाद ब्रिज से चम्बल में आत्महत्या के मामलों में रोक लगी है।

#### विभागीय अनदेखी से जाल क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों ने बताया कि जाल की ऊंचाई इतनी है कि उस पर चढ़कर व्यक्ति चम्बल नदी में कूद नहीं सकता है। लोहे के जाल को ऊपर से ब्रिज की ओर घुमाया गया था। जिससे कोई व्यक्ति यदि जाल पर चढ़कर नीचे कूदने का प्रयास भी करे तो वह चढ़ने के पहले ही नीचे गिर जाएगा। ऐसे में आत्महत्या पर रोक भी लगी। विभाग की ओर से आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने लिए किया गया यह कार्य पूरी तरह कारगर साबित भी हुआ, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते जाल वर्तमान में क्षतिग्रस्त हालत में पहुंच गया है।

#### दोनों प्रदेश की सीमाओं पर सौ-सौ मीटर छोड़ने से हुआ क्षतिग्रस्त

नेशनल हाइवे विभाग की ओर से राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सीमा में 100-100 मीटर जाल और लगा दिया जाता तो इस ब्रिज से सुसाइड करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन नेशनल हाइवे ने दोनों प्रदेशों की ब्रिज सीमा पर सौ-सौ मीटर दूरी पर जाल नहीं लगाया। ऐसे में कई लोगों ने वहां से कूद कर आत्महत्या करने के प्रयास किए थे। ग्रामीणों ने दोनों प्रदेशों की सीमाओं पर सौ-सौ मीटर की दूरी पर जाल लगाने तथा ब्रिज के बीचों बीच क्षतिग्रस्त जाल को हटाकर नया जाल लगाने की मांग की है।

#### अब तक 13 की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई सालों में दो दर्जन से अधिक लोगों ने पाली ब्रिज से चम्बल में आत्महत्या के लिए छलांग लगाई। इनमें से ऐसे में अब तक 13 जनों की मौत हो गई थी।

## शिवाइ मेले में श्रद्धालुओं को नहीं हो किसी प्रकार की असुविधा

# आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करें सुरक्षा के पुख्ता बंदोस्त : शुभम

#### बढ़ता राजस्थान

सवाई माधोपुर (राकेश शर्मा)। शुभमेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग शिवाइ में 25 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव (मेला) की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा की मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए सभी आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोस्त सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि मेला निर्देशिका में मेला व्यवस्था से संबंधित सभी अधिकारियों के दूरभाष नंबर उपलब्ध कराए, ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति में सम्पर्क किया जा सके। बैठक में जिला कलेक्टर ने अवैध शराब की बिक्री नहीं हो इसके लिए बिना लाइसेंस की शराब की दुकानों को बन्द करवाने एवं अवैध शराब की बिक्री को रोकथाम के लिए टीम नियुक्त करने के



निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग को बोले मीणा को मेले से पूर्व विद्युत लाईनों की जांच कर दुरुस्त करवाने, महोत्सव के दौरान 24 घण्टे बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने, रिजर्व ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्वयं सेवकों के सहयोग से साफ-सफाई अभियान चलाकर मेले को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की ओर से लगाये जाने वाले कार्यकर्ताओं को पहचान

पत्र जारी करने तथा सीसीटीवी कैमरे आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले के दौरान दूकानदार व अन्य प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जाए यह सुनिश्चित करने के निर्देश जिला रसद अधिकारी रामभजन मीणा को दिए। उन्होंने मेले के दौरान मोबाइल शौचालय की व्यवस्था एवं एक अग्निशमन वाहन मय स्टाफ के 24 घण्टे उपलब्ध करवाने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए। उन्होंने अतिरिक्त सीएमएचओं डॉ. कैलाश सोनी को मेले के

दौरान 8-8 घण्टे की ड्यूटी डॉक्टरों की राउण्ड द क्लोक लगवाने एवं एक एम्बुलेंस मय पर्याप्त दवाइयों के मेडिकल टीम सहित 24 घण्टे लगावने के चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया, विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, , तहसीलदार चौध का बरवाड़ा नीज सिंह, जिला रसद अधिकारी रामभजन मीणा, ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा, प्रचार मंत्री शम्भू मिश्रा, प्रमोद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ट्रस्ट पदाधिकारी मौजूद थे।

## जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित



#### बढ़ता राजस्थान

सवाई माधोपुर (राकेश शर्मा)। जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सुग्रीव मीणा ने समिति का एजेंडा एवं समिति के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी।

बैठक में उद्योगियों ने रीको क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की समस्या से अवगत कराया गया एवं समाधान के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने रीको औद्योगिक क्षेत्र सवाई माधोपुर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त राजनगर पुलिया को सही करवाने की मांग पर नगर परिषद व रीको की आपसी समन्वय से पुलिया दुरुस्त करवाने, रीको के बड़े नाले को लटिया नाले से जोड़ने की मांग पर नाले में घातक अपशिष्ट प्रवाहित होने की संभावना व अन्य

आवश्यक सुझाव हेतु कमेटी गठन करने के निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सुग्रीव को दिए। उन्होंने रीको क्षेत्र में कच्ची बस्ती के अवैध कब्जों को हटवाने की मांग पर तत्काल नोटिस जारी कर कब्जा धारकों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने हेतु समझौदा करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस जाता के साथ कार्यवाही कर मुख्य मार्ग पर खड़े कबाड़ गैस टैंकों को हटवाकर मार्ग खुलवाने एवं कच्ची बस्ती के अतिक्रमण हटवाने के निर्देश वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक रीको को दिए। इसके साथ ही उन्होंने रोड के किनारे मिट्टी के ढेर पड़े होने की शिकायत पर दोनों ओर से अतिक्रमण हटवाने एवं साफ-सफाई करवाने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा को दिए। बैठक में रीको औद्योगिक संघ के अध्यक्ष अब्दुल सलीम, अधिशासी अभियंता ए.के. बुजेटिया, वाणिज्यिक कर अधिकारी जगमोहन, एआरएम रीको विवेक सिंह, सदस्य बनवारी लाल शर्मा सहित अन्य विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## बालिकाएँ अपराधो की रोकथाम के लिए स्वयं आगे आए : जलूथरिया

पीएम श्री बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

#### बढ़ता राजस्थान

मालपुरा (कृष्णचन्द्र विजय)। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को पीथी राजकीय बालिका उमावि में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिविर को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोक दिनेश जलूथरिया ने कहा कि बालिकाओं को निडर होकर व साहस दिखाते हुए महिला अपराधो को रोकने के लिए स्वयं आगे आकर जागरूक



बनने का प्रयास करें। जलूथरिया ने बाल विवाह की रोकथाम, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय में इस दौरान मातृ पित्र दिवस का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम के सभी अतिथियों का विद्यालय प्रधानाचार्य शीला शर्मा, जगदीशलाल गुर्जर सहित मौजूद शाला परिवार के सदस्यों ने स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार शास्त्री ने किया।

# जसोलधाम की ऐतिहासिक पहल : 635 श्रद्धालुओं को महापूर्ण कुंभ-प्रयागराज अयोध्या एवं वृंदावन स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शनों से करवाया लाभान्वित

## राजस्थान प्रदेश में किसी भी धार्मिक संस्थान द्वारा संख्या बल के अनुसार करवाई गई अब तक की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा

### बढ़ता राजस्थान

जसोल (कैलाश गोस्वामी) । पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित जसोलधाम ने एक बार फिर अपनी सेवा भावना का परिचय दिया। श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल की ओर से कुल 635 श्रद्धालुओं को महापूर्ण कुंभ - प्रयागराज, अयोध्या एवं वृंदावन स्थित पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने हेतु निःशुल्क यात्रा करवाई। यह यात्रा जसोल ग्राम मूल निवासी छत्तीशी कौम के ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई।

भयस्वगत और अभिनंदन : प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौटने पर श्रद्धालुओं का जसोलधाम में भयस्वगत किया गया। संस्थान की ओर से जसोल फाटे पर श्रद्धालुओं का क्रेम

के माध्यम से पुष्प वर्षा, बाइक रैली, गैर नृत्य एवं डोल नगाड़ों के साथ भयस्वगत एवं दिव्य स्वागत किया गया। साथ ही जसोलधाम प्रांगण स्थित पार्किंग में श्रद्धालुओं को माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया।

**निःशुल्क यात्रा और सुविधाएं :** जसोलधाम द्वारा यह यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क करवाई गई, जिसमें आवास, भोजन, परिवहन सहित अन्य सुविधाएं शामिल थीं। मंदिर संस्थान ने सुनिश्चित किया कि सभी श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

**श्री राणीसा भटियाणीसा की असीम कृपा एवं संत सानिध्य :** संस्थान द्वारा आयोजित यह पवित्र धार्मिक यात्रा श्री राणीसा भटियाणीसा की असीम कृपा से निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक रही। तथा पूरी यात्रा में पंच

### 144 वर्षों बाद बना अद्भुत संयोग

144 वर्षों बाद बने अद्भुत संयोग, महापूर्ण कुंभ में जसोल ग्राम मूल निवासी जिसमें मुख्यतः राजपूत, रावणा राजपूत, माली, प्रजापत, खंडेलवाल, घांची, जोगी, नट, भील, सोनार, सुथार, लोहार, वैष्णव, सेवक, जटिया, जोनगर, मेघवाल, हरिजन, देवासी, दर्जी, नाई, दमामी, तीरार समाज सहित विभिन्न समाजों के कुल 635 श्रद्धालुओं ने श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान द्वारा आयोजित महापूर्ण कुंभ - प्रयागराज, अयोध्या एवं वृंदावन स्थित पवित्र धार्मिक स्थलों की इस धार्मिक यात्रा का लाभ लेते हुए अपने जीवन को धन्य किया।

दशनाम जना अखाड़ा एवं अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री नारायणगिरी जी महाराज का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन रहा।

**संस्थान अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष भूमिका :** मंदिर संस्थान के अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल

के निर्देशन में संस्थान समिति सदस्य कुं. हरिश्चंद्र सिंह जसोल ने इस विशेष यात्रा का संचालन किया। इस यात्रा में जसोलग्राम के वृद्ध जनों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, ताकि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति कर सकें।



## लाइफ इन रॉक्स



### बढ़ता राजस्थान

उदयपुर, (दिनेश गोठवाल)। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की कला वीथी में अहमदाबाद के चित्रकार नरेन्द्र पटेल एवं फेनाली पटेल के चित्रों की प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। जिसमें पटेल ने जहाँ "लाइफ इन रॉक्स" में चट्टानों में आकृतियों को गहरे रंगों में चित्रित किया है वहीं फेनाली बर्ड्स और नेचर को अपने चित्रों में दर्शाया है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन स्केचर सुनील लड्डा, मूर्तिशिल्पी हेमन्त जोशी, केन्द्र के सहायक निदेशक


लेखा दुर्गा चंदवानी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में नरेन्द्र पटेल द्वारा दर्शाये चित्रों में गहरे रंगों के प्रयोग के साथ चट्टानों से झांकी आकृतियों को रूपायित किया गया जिसमें मानव, जह्व जंतु आदि के विचित्र प्रमुख हैं। प्रदर्शनी में फेनाली ने भी गहरे रंगों से प्रकृति और उसमें बसने वाली चिरैयाओं का मनोरम चित्रण किया है। यह प्रदर्शनी 16 फरवरी तक चलेगी। उद्घाटन अवसर पर हेमन्त मेहता, शर्मिला राठी, प्रवीण भटनागर, निलोफर, सुनील निमावत, निखिल वर्मा, सी. एल. सालवी, भगवती नलवाया आदि उपस्थित थे।

## नीरजा मोदी मे कार्निवल की धूम आज से

### बढ़ता राजस्थान

उदयपुर, (दिनेश गोठवाल)। नीरजा मोदी के प्रांगण में 15 व 16 फरवरी को भारतीय संस्कृति की झलक कार्निवल के रूप में दिखेगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल में भारतीय संस्कृति पर आधारित थीम पर दो दिवसीय कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन डॉ.महेन्द्र सोजतिया ने बताया कि स्कूल परिसर में छाई कार्निवल की धूम का प्रत्यक्ष रूप देखकर कर ऐसा लग रहा है कि सम्पूर्ण भारत की झलक आगामी दिवस में नीरजा मोदी में प्रस्तुत होने वाली है। कार्यक्रम का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। भारतीय त्योहारों की अद्भुत छवि साथ ही भारतीय व्यंजन, परिधानों, सजावटी सामान, पुस्तकों की स्टॉल हैं। सभी स्टॉल से शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। मूवि थिएटर, साइंस से संबंधित, पंच तंत्र की कहानियाँ, गुरुकुल

शिक्षा प्रणाली, एग्रीकल्चर,सिविलाइजेशन पुरानी सभ्यताएं, जल श्रुल, नभ सेना, आर्किटेक्चर रेलवे, संगीत व नृत्य कला सभी को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष छोटे चिट्ठियाँ पर का आयोजन है जिसमें सभी छोटे - छोटे जानवर जिनके प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बनी रहे। केमल राइडिंग, झूले आदि जिनका बच्चे भरपूर मजा ले सकेंगे। स्कूल की निदेशक डॉ. साक्षी सोजतिया ने बताया कि सम्पूर्ण संस्कृति से संबंधित भारतीय संगीत, लोकनृत्य, पोप्ट राइट, प्राचीन भारतीय गुरुकुल इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय रेलवे, म्यूजिक, आर्मी नेवी एयर फोर्स आदि बूथों पर विद्यालय परिवार मेहनत लगाने से लगा हुआ है। स्कूल परिसर में कोई अपने बूथ का नाम दे रहा है तो कोई सजावट में लगकर अपने कार्य में तल्लीन है। कार्निवल का उत्साह चरम पर है। विभिन्न खेलों के आयोजन की तैयारी में लगे हैं। जिससे बच्चों का उत्साह



बना रहे। निदेशिका साक्षी सोजतिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की उस संस्कृति की ओर इंगित करना है। जो समकालीन से इतिहास से

चली आई और वर्तमान में जिस शिक्षर पर हम हैं। कार्निवल में आप सभी का आना व भारतीय संस्कृति की छवि निहारना हमारे लिए सराहनीय रहेगा।

## अखिल भारत हिन्दू क्रान्ति सेना ने पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, भगतसिंह स्मारक की साफ-सफाई भी की



### बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णु दत्त धीमान)। भगत चौगहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास अखिल भारत हिंदू क्रान्ति सेना द्वारा पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर देशभक्ति और सम्मान की भावना से ओत-प्रोत माहौल देखने को मिला। श्रद्धांजलि सभा से पूर्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर शहीद भगत सिंह स्मारक की साफ-सफाई की। स्मारक पर लगे धूल-मिट्टी को साफ किया गया और वहां पर दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था की गई। संगठन के सदस्यों ने इस पहल को न केवल शहीदों के प्रति सम्मान माना, बल्कि यह संदेश भी दिया कि हमें अपने राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल स्वयं को करनी चाहिए। शाम 5:30 बजे श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजसेवी, संगठन के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, युवा एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सबसे पहले सभी ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात, दीप प्रज्वलन कर पुलवामा के अमर शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभा में वक्ताओं ने पुलवामा हमले की विधोषिका को याद करते हुए कहा कि 14 फरवरी 2019 का वह काला दिन भारतीय इतिहास में अमिट रहेगा, जब हमारे वीर जवानों को कायरतापूर्ण हमले में खो दिया था। वक्ताओं ने कहा कि ये जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो गए और हमें हमेशा उनकी शहादत का सम्मान करना चाहिए। अखिल भारत हिंदू क्रान्ति सेना के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की सुरक्षा, अखंडता और स्वाभिमान के लिए सदैव तत्पर रहें। श्रद्धांजलि सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी, ब्यावर जिला व्यापार संघ अध्यक्ष संजय धीया, जाबू भाई, विकलांग संघ अध्यक्ष पप्पू पहलवान, रतन गुर्जर,संगठन के जिला संयोजक देवेन्द्र जटिया, सागर सोनी,जिला प्रभारी चंद्र प्रकाश पटवारी जिला उपाध्यक्ष सूरज मेघवंशी भूपेंद्र धानका राधेश्याम भट्ट विशाल माथुर विक्रम रत, सुनील फुलवारी, रोहित जावा, आदित्य अरविंद, धनराज सोलंकी, मोंटी पारीक और हर्ष बागरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे उपस्थित लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया और यह संकल्प दोहराया गया कि हम अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।

## जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद ब्यावर में लंबित बिलों और निर्माण कार्यों को छोड़ी सघन जांच

### बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णु दत्त धीमान)। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर, डॉ. महेन्द्र खडगावत द्वारा नगर परिषद ब्यावर में लंबित बकाया बिलों के भुगतान और वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच हेतु दो समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे गहन जांच कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत बताया कि जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाए ताकि लंबित बकाया बिलों के निस्तारण और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

## केकेसी पीजी महाविद्यालय में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन

### बढ़ता राजस्थान

सरदारशहर (नि.स.)। केकेसी पीजी महाविद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जूनियर विद्यार्थियों द्वारा अपने सौनियर के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश व मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम को रोचक रूप देने के लिए महाविद्यालय के सौनियर के लिए उनके जूनियर के द्वारा रैंप वॉक, गेम्स व विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विभिन्न एकल व सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में महाविद्यालय की छात्रा नन्दिनी जागिड़ एंड ग्रुप, खुशी एंड ग्रुप, कोमल एंड ग्रुप तथा भावना एंड ग्रुप,केतन एंड ग्रुप ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में संस्था निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सह शैक्षिक गतिविधियों भी अति महत्वपूर्ण हैं जिससे कि विद्यार्थियों का समग्र रूप से विकास होता है इसलिए शिक्षा के साथ विभिन्न प्रकार की खेलकूद व सांस्कृतिक



प्रतियोगिताओं में भी निरंतर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में बीसीए तृतीय वर्ष की छात्रा समृद्धि वर्मा व बीए के छात्र मानवेंद्र को स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया बिस्ट परफॉर्मर बॉयज में बीसीए फाइनल के जितेंद्र सिंह को तथा गर्ल्स में एमए की अफसाना बानो को चुना गया। मिस्टर फेयरवेल के रूप में बीसीए फाइनल के सौरभ स्वामी को तथा मिस् फेयरवेल के रूप में बीए फाइनल की मुस्कान बानो को चुना गया। कार्यक्रम में जज

की भूमिका देवीलाल, बेगराज, श्याम सुन्दर व रामकला केजरीवाल ने निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.सुमेर सिंह स्वामी ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें इस प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों में बड़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में एमएएससी जूलाजी की छात्रा विशाखा बोहरा को महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल की सूची में आने पर सम्मानित

## बंध का पुरा को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन



### बढ़ता राजस्थान

हिंडौन सिटी (अंशु गुप्ता)। हिंडौन सिटी की ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के राजस्व गांव बंध का पुरा को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ग्रामीण शुभम तिवारी के नेतृत्व में लवकुश जाटव,जयसिंह जाटव,मोहरसिंह जाटव ने बताया कि ग्राम पंचायत फुलवाड़ा से बंध का पुरा को पृथक कर अलग से नवसृजित ग्राम पंचायत बनायी जावे। ग्राम बंध का पुरा की वर्तमान मे आबादी दोघाटी व चमरपुरा से अधिक है।

ग्राम पंचायत बंध का पुरा बनाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यदि ग्राम पंचायत फुलवाड़ा से बंध का पुरा को अलग किया जाता है। तो ग्राम पंचायत बंध का पुरा बनाई

जावे। यदि राजस्व गांव बंध का पुरा ग्राम पंचायत नहीं बनाई जाती है तो ग्राम बंध का पुरा को ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में ही रखा जावे। ग्राम पंचायत दोघाटी या चमरपुरा बनाई जाती है तो गांव बंधकापुरा से दोनो गांव 9 किलो मीटर दूर हैं। बंधकापुरा से दोघाटी,चमरपुरा जाने में मतदाताओं को भी अत्यधिक परेशानी व असुविधा होगी। प्रशासन को भी अकारण परेशानी होगी।

सुविधा को दुषिष्ट से ग्राम पंचायत बंधकापुरा बनाने को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में शुभम तिवारी, मोहन सिंह, महेश जाटव,केदारलाल,नरेश बनेसिंहजयलाल,जयसिंहमेहरा,तेजराजसमयसिंह,बनीसिंह,अतर्रा सह,लवकुश,घनश्याम,सरदार, कसान, बृजलाल, लालाराम अमृत,दिनेश आदि मौजूद रहे।

## श्री महावीर जी में विश्व शांति महायज्ञ एवं मंडल विसर्जन : श्रद्धालुओं ने की सुख-समृद्धि की कामना

### बढ़ता राजस्थान

हिंडौन सिटी (अंशु गुप्ता)। हिंडौन सिटी श्री महावीर जी, शुक्रवार को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में आयोजित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का समापन विश्व शांति महायज्ञ एवं मंडल विसर्जन के साथ अपार श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति अर्पित कर विश्व शांति, सुख-समृद्धि और आत्मकल्याण की मंगलकामना की। पूरा वातावरण मंत्रोच्चार, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गया।

**महायज्ञ, आहुति के साथ उमड़ी भक्तों की श्रद्धा :** सुबह

7.30 बजे श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक व शांतिधारा सम्पन्न की। आर्यिका श्री 105 दीक्षाश्री माताजी के पावन सानिध्य में पंडित मुकेश जैन शास्त्री ने वेद-मंत्रों के उच्चारण के साथ विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ कराया। अंगन में आहुति देते समय श्रद्धालु ह्रीं श्री अहं नमःमंत्र का जाप कर रहे थे, जिससे संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। आहुति के दौरान भक्तों ने अपनी मनोकामनाएँ प्रभु को अर्पित कीं और जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना की। हवन कुंड से उठती सुगंधित धूप और वेद-मंत्रों की गूंज ने वातावरण को अत्यंत दिव्य और भक्तिमय बना दिया। मंडल



विसर्जन- भाव-विभोर हुए श्रद्धालुमहायज्ञ के उपरांत श्री सिद्धचक्र महामंडल का विसर्जन संपन्न हुआ। इस पावन अनुष्ठान में दिनेश कुमार जैन, निर्मला जैन, चंद्रेश कुमार जैन, सुनीता जैन, गिन्नो देवी जैन, ललित जैन विनोद कुमार जैन जयपुर, प्रफुल्ल जैन, प्रतीक्षा जैन, बेबी जैन, रमेश चंद जैन

सरिता जैन, राकेश जैन डॉली जैन, राजीव जैन लक्ष्मी जैन, महेंद्र जैन सरला जैन, सुभाष जैन हेमलता जैन, अशोक जैन कविता जैन, प्रदीप जैन नीता जैन, संगीता जैन, संजय जैन, सीमा जैन, राजेश जैन, हिना जैन, मीनाक्षी जैन, दिविषा जैन सहित सैकड़ों श्रद्धालु सम्मिलित हुए।

## प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 16 को, मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा आएंगे

### बढ़ता राजस्थान

हिंडौन सिटी (अंशु गुप्ता)। भगवान महावीर के 2550 वे निर्माण कल्याण वर्ष निमित्त राजस्थान के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार के निर्देश अनुसार भगवान महावीर के जन्मदिन 16 फरवरी 2025 दिवस पर निबंध प्रतियोगिता 1 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता में संपूर्ण राजस्थान के 26 जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिरीश जैन एवं संयोजक अशोक कुमार जैन ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता का

परिणाम आध्यात्म परिवार गुप के तत्वाधान में तैयार कर लिया गया है, जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 तक तथा सौनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। इस निमित्त संपूर्ण राजस्थान का निबंध प्रतियोगिता पारितोषिक वितरण समारोह श्रीअग्रसेन कन्या महाविद्यालय परिसर हिंडौन सिटी जिला करौली में दिनांक 16 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा रहेंगे। पूज्य गनिवर्य श्री मणिरत्न सागर जी महाराज साहब की निश्रा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

## श्रवण कुमार की कहानी सुनाकर मातृ पितृ सम्मान दिवस आयोजित



बढ़ता राजस्थान

**गादोला (नि.स.)**। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 14 फरवरी शुरुवार को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी वीणा शर्मा के निर्देशन में मातृ-पितृ सम्मान दिवस का आयोजन स्थानीय विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहम्मद युनुस शेख ने की व संचालन रामेश्वर दत्त शर्मा ने किया। कार्यक्रम प्रभारी नरेन्द्र जेतवाल ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता श्री केशवा चंद्र मीणा व राकेश कुमार मीणा को आमंत्रित कर उपनारा, मंगल तिलक व मौली बन्धन से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूनमबाई यादव, टीना नागौरी, सुशीला सुथार,रूबीना बानू, दशरथ कुमार रेगर, मंजुबाला कुमावत, नरेन्द्र जेतवाल, प्रहलाद नारायण जोनवाल, केसर खान पटान, प्रकाश चन्द्र रेगर व सौरभ चौधरी सहित अनेक वक्ताओं ने श्रवण कुमार की कहानी सुनाकर माता-पिता के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनका सम्मान करने व उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही समस्त छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन सवेरे उठते ही माता-पिता के चरणस्पर्श व प्रणाम करने हेतु भी कहा गया। अध्यक्षीय उद्घोषण प्रदान करते हुए प्रधानाचार्य शेख ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को ऐसे तैयार करें कि किसी के माता-पिता को वृद्धाश्रम में शरण नहीं लेना पड़े। कार्यक्रम में समस्त छात्र-छात्रा सहित अभिभावक व ग्रामोपजन उपस्थित थे।

## दूल्हे को लेने पहुंचा हेलीकॉप्टर बना ग्रामीणों में कौतूहल



बढ़ता राजस्थान

**चित्तौड़गढ़ (संजय खाबिया)**। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती बराड़ा में स्थित एक होटल में आयोजित वैवाहिक समारोह में पहुंचा हेलीकॉप्टर आसपास के ग्रामीणों में कौतूहल का विषय रहा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बराड़ा में स्थित कैसरबाग होटल में शुरुवार को एक क्षत्रिय परिवार के वैवाहिक समारोह में दूल्हे की बारात को लेने पहुंचा हेलीकॉप्टर जब क्षेत्र से गुजरा तो आसपास ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना रहा। हेलीकॉप्टर जब होटल में उतरा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे हेलीकॉप्टर में दूल्हे की बारात ले जाने का दृश्य देखने उमड़ पड़े। बैंड बाजे के साथ दूल्हे के सवार होने तक करीब आधा घंटा हेलीकॉप्टर इस होटल में रुका रहा। इस बीच दूल्हे के परिजनों ने भी हेलीकॉप्टर के साथ फोटो सेशन किया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार होकर दूल्हे राजा बीकानेर में वधु पक्ष के यहां अपनी दुल्हनिया लेने के लिए रवाना हुए।

## संत रविदास की जयंती पर रेगर समाज ने निकाली शहर में शोभायात्रा महिलाओं ने धारण किये 251 मंगल कलश

बढ़ता राजस्थान

**केकड़ी (संजय कटारिया)**। रेगर समाज के आराध्य देव संत रविदासजी की जयंती केकड़ी में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर रेगर समाज भैरू गेट के तलावधान में समाज के लोगों ने जयपुर-धीलवाड़ा बाईपास स्थित संत रविदास सर्कल पहुंचकर संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात भैरू गेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर से शोभायात्रा प्रारंभ हुई। शोभायात्रा के जुलूस को सभापति कमलेश साहू व गोपाल लाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोडिया प्रभारी महावीर प्रसाद कांसोटीया ने बताया कि शोभायात्रा का जुलूस भैरू गेट से प्रारंभ होकर सरसडी गेट, बस स्टैंड, कचहरी रोड़, तीन बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, गणेश मंदिर, सदर बाजार, वीर चौराहा, छिड़की गेट, लोड़ा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट व रेगर मोहल्ला होते हुए वापस बाबा रामदेव मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। शोभायात्रा में 251 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थीं। वहीं पुरुष सिर पर आकर्षक पागड़ी बांधकर हाथों में धर्म पताकाएं धामे संत रविदास के जयकरे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान एक सजी-धजी घोड़ा बग्गी में संत रविदास की सुसज्जित प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही।

## कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति ने किया धरना प्रदर्शन, सीएम के नाम सौपा ज्ञापन कृषि पर्यवेक्षक सदाकत अली ने धरने को संबोधित किया

बढ़ता राजस्थान

**अंता/बारा (शफीक मंसूरी)**। कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी कृषि पर्यवेक्षक एवं पदोन्नत सहायक कृषि अधिकारी एक दिन का अवकाश लेकर सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय परिसर में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय पर एकत्रित हुए। जहां जिलाध्यक्ष कमलप्रकाश मीणा के नेतृत्व में कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने में छीपाबडोद से संरक्षक मोहनलाल महावर, सहायक कृषि अधिकारी रामदयाल गोचर, कृषि पर्यवेक्षक छबड़ा कलक्टर के अध्यक्ष आनंदप्रकाश मीणा, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक सदाकत अली व अंता ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी आदि ने धरने को संबोधित किया। धरना शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार धनराज मीणा को मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने में अंता, छबड़ा, छीपाबडोद, अटरू, शाहाबाद, किशनगंज, मांगरोल, बारा ब्लॉक के कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

# केली में रात्रि चौपाल, विधायक एवं जिला कलक्टर रहे मौजूद, 40 परिवारों का त्वरित निस्तारण

ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का समाधान मौके पर मिला, बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को दिए टिप्स

बढ़ता राजस्थान

**चित्तौड़गढ़ (संजय खाबिया)**। जिले के निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के केली ग्राम पंचायत के विद्यालय प्रांगण में पूर्व मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचन्द्र कृपलानी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का समाधान मौके पर मिला। चौपाल में 40 से अधिक परिवार प्राप्त हुए। चौपाल के दौरान अतिक्रमण हटाने, मोक्षधाम के लिए भूमि दिलवाने, पट्टा दिलवाने, विद्यालय के खेल मैदान से 11 हजार केवी विद्युत लाइन हटाने, मंदिर हेतु भूमि दिलवाने, राशन की दुकान को समय पर खुलवाने और पेंशन से संबंधित 40 से अधिक परिवार प्राप्त हुए। इन परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और जिन मामलों में तुरंत समाधान संभव नहीं था, उनके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बढ़ता राजस्थान

## पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक सम्पन्न

बढ़ता राजस्थान

**चौमहला (आविद हुसैन)**। झालावाड़ जिले गंधार पुलिस थाना परिसर में शुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चौमहला गंधार,उन्हेल नागेश्वर, डाग के सीएलजी सदस्यों, गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया साथ ही व्यापार संघ के सहयोग से हेल्मेट वितरण किए गए। बैठक में यातायात व्यवस्था, गंधार,चौमहला,कस्बे हो रहे अतिक्रमण,साइबर उगी,यातायात नियमों के प्रति जागरूकता, गंधार थाने में स्टाफ की कमी आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की उन्होंने सभी से हेल्मेट लगाने,चार पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाने,शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। तथा उन्होंने आशा व्यक्त की बैठक के बाद लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आयेगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोतम जैन,सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी ने कस्बे में ट्रैफिक पुलिस लगाने,थाने में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति करने की मांग रखी,किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया ने स्थानीय वाहन चालकों का टोल फ्री करवाने की बात रखी,पिंकी डोसी ने नाबालिक बच्चों द्वारा

दौरान विधायक श्रीचन्द्र कृपलानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बारिश के पानी के कारण सड़कों पर जलभराव न हो। विधायक ने अस संबंध में नालियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर लक्ष्मीनारायण गौशाला निर्माण, विद्यालय भवन और सामुदायिक भवन की चारदीवारी निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजे जाने के निर्देश दिए ताकि इन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। विधायक कृपलानी ने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए कि रटाजना क्षेत्र में पानी भरने की समस्या का समाधान करने के लिए एक एनीकट (नदी पर बांध) का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा जाए।

बढ़ता राजस्थान

## विद्यार्थियों को लेकर कलक्टर ने विद्यार्थियों को दिए टिप्स : जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बोर्ड परीक्षा को



तेजगति से वाहन चलाने पर रोक थाम के लिए समझाशा शिबिर आयोजित करने का सुझाव रखा,उन्हेल के सीएलजी सदस्यों ने उन्हेल में महिला कांस्टेबल लगाने की मांग रखी जिस पर उन्होंने उन्हेल में दो महिला कांस्टेबल लगाने,गंधार थाने में जासा बढ़ाने का आशासन दिया। बैठक के बाद व्यापार संघ के सहयोग से हेल्मेट वितरण किए गए। बैठक में उपखंड अधिकारी छत्र पाल सिंह चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक, जय प्रकाश अटल,थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी,उन्हेल नागेश्वर थाना प्रभारी रामनारायण कटारिया,व्यापार संघ अध्यक्ष मनोहर ओसवाल,भाजपा मंडल अध्यक्ष गोतम



देखते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता के टिप्स दिए और उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और तनाव रहित परीक्षा देने की सलाह और कहा कि अच्छे परिणाम के लिए नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन को महत्ता दे।



**जिला कलक्टर आलोक रंजन ने ग्रामीणों से किया संवाद**  
जिला कलक्टर आलोक रंजन ने चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से जनसुनवाई की और उनकी समस्याओं को सुना। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे 40 व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने की जानकारी लेते हुए जिला कलक्टर ने पात्र व्यक्तियों से ई मित्र के माध्यम से नाम जोड़ने का कहा और इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी देते हुए योजना के तहत निर्मित आवासों की प्रगति की समीक्षा की।

## मानव का प्राण सृष्टि का आधार और धर्म का श्रृंगार है प्रकृति

बढ़ता राजस्थान

**चित्तौड़गढ़ (संजय खाबिया)**। मानव का प्राण सृष्टि का आधार और धर्म का श्रृंगार है प्रकृति जिसके बिना कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। उक्त विचार राष्ट्र संत कमल मुनि जी कमलेश ने महावीर गुरु गणेश बाबू मुनि गौशाला का पुणे में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते कहा कि पशुधन का कोई विकल्प नहीं है जो हीरे माणक मोती से कीमती है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक संस्कृति में पशु का योगदान आक्सिजन से महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के रामबाण औषधि के समान है। मुनि कमलेश बताया कि हर धर्मस्थल के साथ एक गौशाला होनी चाहिए ताकि पूजा पाठ प्रसाद में शुद्ध वस्तु का उपयोग हो सकता है।

राष्ट्र संत ने कहा कि पशुधन नहीं बचा तो यूरिया के दूध से भगवान का प्रक्षालन होगा नकली घी से दीप जलेंगे आस्था तार तार हो जाएगी तिरुपति बालाजी की तरह छपन भोग गौतम प्रसादी यहाँ तक साथ सतों के आहार में भी नकली दूध और चर्बी के घी से साधना का जनाजा निकल जाएगा। जैन संत ने केंद्र और



राज्य सरकार से कहा तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी शिरडी स्वर्ण मंदिर गरीब नवाज चर्च आदि बड़े-बड़े तीर्थ में बड़ी-बड़ी गौशालाएँ होनी चाहिए। जनता उन आश्रम को चंदा ना दे जिसमें गौ माता नहीं है। अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच नई दिल्ली महिला शाखा महाराष्ट्र प्रेम बहन बोहरा ने कहा कि गुस्देव कमल मुनि जी की जयंती पर उनकी प्रेरणा से सीगणापुर कलंब जिला यवतमाला महाराष्ट्र में महावीर गुरु गणेश बाबू मुनि गौशाला का उद्घाटन हो गया है। भारत के बड़े 25 संगठन एक-एक दिन हमेशा राष्ट्र संत की जयंती अपने-अपने ढंग से दिवाकर मंच के नेतृत्व में मना रहे हैं वह सब बधाई के पात्र हैं।

## श्री सुधा सागर स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस



बढ़ता राजस्थान

**केकड़ी (संजय कटारिया)**। सापेदा रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सोनियर सैकण्डरी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल ने सभी अभिभावकों का स्वागत किया तथा इस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षक श्रीनारायण शर्मा ने एक कहानी के माध्यम से संस्कारित शिक्षा पर जोर दिया। अभिभावक शिशुपाल जाट व प्रदीप जैन ने बच्चों से कहा कि वे आपसी बातचीत को गिरमापूर्ण बनाएं। उन्होंने कहा कि अभिभावक, माता-पिता व गुरुजन देव तुल्य होते हैं। उनकी सोख व आशीर्वाद से निश्चित ही उत्कृष्ट जीवन का निर्माण होता है। बाद में कार्यक्रम के अंतर्गत मधुर गीत गायन के साथ विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के चरण प्रक्षालन किये और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने माता-पिता के समक्ष संस्कारवान बनने का प्रण लिया। स्कूल निदेशक अजय जैन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आजाद शर्मा ने किया।

## जिला अभिभाषक संस्थान की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 15 को

बढ़ता राजस्थान

**चित्तौड़गढ़ (संजय खाबिया)**। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 15 फरवरी सायं 5 बजे नवीन न्यायालय के एडवोकेट चेम्बर परिसर को होगा। सचिव नरेन्द्र योगी ने बताया कि शपथग्रहण समारोह राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज गर्ग, मुन्नी

## विद्या निकेतन में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया, पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि

बढ़ता राजस्थान

**चित्तौड़गढ़**। गांधीनगर स्थित विद्या निकेतन उमावि में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाते हुए पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य ललिता खण्डेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि आरएसएस के विभाग कार्यवाही दिनेश चन्द्र भट्ट ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। अतिथि परिचयर प्रधानाचार्य ने करवाया व दीपक सिंह कसाना ने स्वागत किया। कार्यक्रम में आमंत्रित माता-पिता को भैया बहिनों ने चरण वंदन किया और आरती उतारी। भैया बहिनों को माता-पिता की सेवा करने का संकल्प दिलाया। इसके पश्चात्

पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भट्ट ने उद्बोधन में कहा कि माता पिता का स्थान संसार में सर्वोच्च हैं, उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है। इसी के साथ कहा कि वर्तमान समय में देश के लिए जोने की आवश्यकता हैं। देश की उन्नति के लिए हम सभी सहभागी बने यही पुलवामा हमले के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में राजेश काकडुदा, गोपाल शर्मा, अशोक सोलंकी, तुलसी काकडुदा, सीमा शर्मा, मीना सोलंकी, सुष्मा कसाना उपस्थित रहे। संचालन ममता राठौड़ व अनिता मेवाड़ा ने किया। आभार सहायक प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा ने बताया।



## जिला कलक्टर ने ली ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक

बढ़ता राजस्थान

**बूंदी, (नि.स.)**। जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में शुरुवार को नैन्वा पंचायत समिति के सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने उपखण्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति जानी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आमजन को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल की स्थापना के लिए अधिकाधिक आवेदन प्राप्त किए जाए। कृषि कनेक्शन वरीयता सूची के अनुसार ही जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल और शौचालय की सुविधा से वंचित राजकीय विद्यालयों, सीएचसी व पीएचसी में प्राथमिकता से इन सुविधाओं

की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टित पेयजल संबंधी व्यवस्थाओं के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी क्षेत्र में संचालित जल जीवन मिशन के तहत रोडू कटिंग के बाद सड़क मरम्मत के कार्य गुणवत्ता के साथ करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही बजट घोषणाओं से संबंधित लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रगति लावें। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत ई-केवाईसी बढ़वाने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड वितरण, टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जल्दी दिशा-



निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी, सीएचसी, स्कूलों में मरम्मत कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही आयुर्वेद भवन, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी एवं चिकित्सा संस्थान शौचालय से वंचित नहीं रहें। उन्होंने विधायक एवं सांसद कोष के तहत स्वीकृत हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारी बैठक लेकर इसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखण्ड अधिकारी नैन्वा प्रीति मीणा, तहसीलदार नैन्वा रामराय मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी सामर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता इन्द्रजीत मीणा, स्वच्छ भारत मिशन के जिला परिचयजना समन्वयक निजामुद्दीन एवं सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

# आखिर क्यों चले गए पालिकाध्यक्ष विधायक सहित पार्षद बैठे रह गये

बढ़ता राजस्थान

निवाई (का.स.)। नगर पालिका निवाई में वार्षिक बजट बैठक उस समय हंगामों की भेंट चढ़ गई, जब नगर पालिका उपाध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष और 20 पार्षदों को लिखित मांग के बाद भी डॉगरथल रोड को 100 फिट से 60 करने के लिए बैठक के एजेंडे में जोड़ने की मांग ही तो रखी थी। पालिकाध्यक्ष दिलीप इसरानी ने बजट का प्रस्ताव रखा, अनुमोदन के तुरंत बाद बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद विजय शर्मा, सत्ता पक्ष के पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार चवरेरिया, कांग्रेस महावीर प्रसाद जैन, तबसुम बानो, रामबिलास बलाई सहित कई पार्षदों ने सदन में अपनी मांग दोहराते हुए जमकर हंगामा किया और टैबिले बजाई चेरमैन दिलीप इसरानी गुस्सा होकर सदन से बाहर चले गये और विधायक रामसहाय वर्मा सहित सभी पार्षद हाथ मलते रह गए। इतना ही नहीं पालिकाध्यक्ष इसरानी ने स्वयं तीन बार सदन के अन्दर आकर विधायक रामसहाय वर्मा को भी उठाकर अपने पर साथ ले गए जिससे बजट बैठक हंगामे के की भेंट चढ़ कर रह गई। सारे पार्षद पालिकाध्यक्ष की नाराजगी के बाद उठ कर अपने घर जाने लगे तो पालिकाध्यक्ष ने अपने चहेते पार्षदों को चैबर में बुलाकर मन्त्रणा करने लगे। पार्षद विजय शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को निवाई नगर पालिका बजट बैठक में ऐसा नजारा देखने को मिला जो आज तक शायद कहीं भी देखने और सुनने को नहीं मिला। क्योंकि जिसकी अध्यक्षता में पालिका बैठक हो रही थी वह ठीक ठीक चल रही थी और विधायक सहित पार्षद देखते रह जाये।



## गरिमा के विरुद्ध

नगरपालिका बजट बैठक में स्वयं पालिकाध्यक्ष दिलीप इसरानी ने बैठक का बहिष्कार किया और स्वयं उठकर चले गए। सदन में चर्चा होनी चाहिए। पार्षदों की मांग को एजेंडे में जोड़कर सदन में चर्चा करनी चाहिए न कि सदन छोड़कर भागना चाहिए। ये ओखी मानसिकता है।

कांग्रेस पार्षद, विजय शर्मा

वर्ष 2025-26 के लिए एक अरब 24 करोड़ 72 लाख 36 हजार रुपए का बजट पारित

शुक्रवार को विधायक रामसहाय वर्मा की मौजूदगी व पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी की अध्यक्षता में पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 124 करोड़ 72 लाख 36 हजार रुपए का बजट पारित हुआ है।

कहां क्या और कितना खर्च : नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मती से खणदेवत रोड से इन्द्रा कॉलोनी तक 9 करोड़ रुपए की लागत से नाला निर्माण, भरकुआं तालाब से बाईपास तक 4 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण, पीएम श्री विद्यालय के पीछे स्थित पालिका के भू-खंड में 2 करोड़ रुपए की लागत से

पक्के चबूतरों का निर्माण व सब्जी मंडी के विकास कार्य, पुलिस थाने से अहिंसा सर्फिल होते हुए डॉ. एलडी के निवास तक डिवाइंडर निर्माण, 80 फीट रोड पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल पार्क निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण, डाई करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि

पार्को में दांडी मार्च यात्रा व फंवारे लगाने सहित करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास के कार्य होंगे। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र चवरेरिया ने कहा कि प्रत्येक 2 माह में साधारण सभा की बैठक की जाए। जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों के कार्य समय पर हो सके। विकास कार्य गुणवत्ता पूर्ण करवाए जाए। उन्होंने कहा कि पार्षद रामबिलास बलाई व तबसुम बानो ने नगरपालिका ठेकादारी द्वारा समय पर कार्य नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में पार्षद विजय शर्मा, पार्षद पारस पहाड़ी व तबसुम बानो ने कहा कि मास्टर प्लान में खणदेवत रोड को चौड़ाई 60 फीट है और नगरपालिका द्वारा भी 60 फीट छोड़कर पट्टे जारी किए हैं जबकि पालिका के रिकार्ड में उक्त रोड 100 फीट दर्शाया गई है। जिसको एजेंडे में शामिल करके सही करवाया जाए। पालिकाध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि आज की बैठक में केवल एजेंडे पर ही चर्चा होगी। जिस पर बोर्ड बैठक में कुछ देर के लिए हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान उन्होंने सर्वसम्मति से बजट पारित करने की घोषणा करते हुए बैठक को समाप्त किया। बैठक में अधिशासी अधिकारी मनोहरलाल जाट, सहायक अधिशासी चन्द्रप्रकाश मीणा, पार्षद परसराम कुमावत, शंकर घाटी, महावीरप्रसाद पराणा, ओपी गुप्ता, नितिन छाबड़ा, रानी तंबोली, सुनीता जायसवाल, सविता टाटावत, गिराज जाट, मास्टर मदनलाल वर्मा, दुर्गा शंकर सेन, दयाराम जाट, गिराज जाट, अल्लह रक्खा, बाबूलाल सैनी, महेन्द्र जैन, रानी तंबोली, अजहर कुरेशी, पृथ्वीराज टाटावत व संजय रैगर सहित कई अधिकारी, कर्मचारी व पार्षद मौजूद थे।

## देवली थाना पुलिस की कार्यवाही : अंग्रेजी शराब की 490 पेटिया बरामद कर दो आरोपी को किया गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

देवली (गोविंद सिंह सेठी)। गुरुवार की शाम को देवली थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ एक्सआइए एक्ट में कार्यवाही करते हुए 14 चक्का ट्रक में रखे 490 शराब की पेटिया बरामद करते हुए दो आरोपियों सहित ट्रक को जप्त कर लिया है। देवली पुलिस थाना के ए एस आई दिलीप सिंह ने जानकारी में बताया कि गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर शहर के जयपुर रोड पर नाकाबंदी की गई इस दौरान गुरुवार की शाम को 700 बजे एक ट्रक आए, जे,14 जी डी को रुकवा कर ट्रक की तलाशी ली गई। इस दौरान ट्रक में लकड़ी के प्लाई बोर्ड रखे हुए थे जिनके बीच में हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की पेटिया छुपा कर ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस को ट्रक में रखी भारी मात्रा में शराब की पेटिया दिखाई पड़ी इस पर पुलिस ने पूरे ट्रक की तलाशी लेना शुरू कर दिया जहां पुलिस ने 490 हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की अवैध पेटिया बरामद कि इस मामले में जानकारी यह भी मिली कि पुलिस ने जयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी करने

के दौरान उक्त ट्रक को रुकवा कर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। इस दौरान देखा गया कि अवैध शराब की तस्करी करने के लिए ट्रक को लकड़ी की पिलाईयों से पूरी तरह ढक कर ट्रक की बाँड़ी में पिलाईयों से कमरानुमा डिजाइन किया हुआ केबिन बनाया हुआ था। जिसमें हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब छुपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि इस कार्यवाही में पुलिस ने उक्त कामरानुमा केबिन में रखी, रॉयल स्टैंग रॉयल ग्रीन, मैकडॉनल्ड, ब्रांड की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 490 पेटिया जप्त करते हुए इस मामले में ट्रक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक चालक रंजीत कुमार पुत्र नंदकिशोर शर्मा निवासी जतखोली थाना वैशाली जिला वैशाली नगर और हर्देंद्र प्रसाद पुत्र श्याम नंदन सिंह यादव इंद्र विहार जिला जहानाबाद बिहार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बरामद की गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से उक्त मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु पूछताछ शुरू कर दी है।

# खरायता ग्राम पंचायत में चल रहा घटिया रोड निर्माण, सरपंच की मिलीभगत आई सामने

बढ़ता राजस्थान

लाखेरी (नि.स.)। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरायता के गांव खरायता में सरकारी स्कूल के पास संवेदक द्वारा रोड पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस इंटरलॉकिंग में संवेदक द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक द्वारा रोड के निर्माण में पीसीसी करते समय प्रतिबंधित मोटी काली रेत में गिट्टी मिला कर पीसीसी कर डाली जिसमें सीमेंट की मात्रा नहीं के बराबर डाली गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीसीसी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा



रही है जबकि संवेदक द्वारा सीधे नदी की मोटी काली रेत को बिछ कर ऊपर से इंटरलॉकिंग की जा रही है। संवेदक द्वारा की गई पीसीसी पैदल चलने से ही पैरों

के साथ उखड़ रही है। ग्रामीणों द्वारा इस घटिया निर्माण की जानकारी सरपंच को देने के बावजूद भी इस निर्माण कार्य में सुधार नहीं होना कही ना कही

संवेदक से सरपंच की मिली भगत को दर्शाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि संवेदक द्वारा रोड की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से कम कर निर्माण कार्य किया

जा रहा है जिससे चलते रोड पर एक साथ दो चार पहिया वाहन को निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। घटिया निर्माण की सूचना पर तकनीकी सहायक अधिवक्ता पंचायत समिति के, पाटन, दशरथ मीणा को मौके पर भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर संवेदक द्वारा मौके पर घटिया निर्माण किया जाना पाया गया है, अतः वर्तमान में रोड के निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है तथा संवेदक का भुगतान रोक दिया गया है। संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

(भानुप्रताप, बीडीओ, केशवराय पाटन)

## दूनी प्रधानाचार्य भंवरलाल कुम्हार जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए

विभागीय पदोन्नति समिति की सूची आने पर विद्यालय में किया स्वागत सम्मान



बढ़ता राजस्थान

देवली (गोविंद सिंह सेठी)। देवली उपखंड क्षेत्र के दूनी तहसील मुख्यालय स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल कुम्हार का विद्यालय पदोन्नति समिति की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हुआ है। चयन उपरांत विद्यालय आगमन पर प्रधानाचार्य

कुम्हार का विद्यालय स्टाफ,एसएमसी,एसडीएमसी एवं छात्र-छात्राओं के द्वारा माला व साफा पहना व मुंह मीठा कर स्वागत सम्मान किया है और शुभकामनाएं दी गई। उल्लेखनीय है कि कुम्हार राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक हैं। जो पूरे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल कुम्हार का

भारद्वाज न्यूज एजेंसी पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान भगवान गुरुकुपा संस्थान के संस्थापक पंडित मुकेश गौतम, पत्रकार गोविंद सिंह सेठी पत्रकार बृजेश भारद्वाज अध्यापक संतेंद्र जोशी, चंद्र प्रकाश माहेश्वरी,विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष आशीष पंचोली, व दिलीप पंचाल ने जिला शिक्षा अधिकारी भंवर लाल कुमार को मालाार्पण उनका भव्य स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं भेंट की।

## मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना अन्तर्गत राजकीय कार्यालयों में इन्टर्शिप कर रहे आशार्थियों का किया औचक निरीक्षण

बढ़ता राजस्थान

चूरू (सुरेश लाटा)। जिला रोजगार कार्यालय की टीम ने गुरुवार को कोशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना अन्तर्गत राजकीय कार्यालयों/विभागों में इन्टर्शिप कर रहे आशार्थियों का औचक निरीक्षण किया। सहायक निदेशक वर्षा जल नु बैताया कि निरीक्षण में अधिकतर आशार्थी अनुपस्थित पाए गए, जिसके फलस्वरूप उनका बेरोजगारी भत्ता बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है तथा गलत तथ्य प्रस्तुत कर बेरोजगारी भत्ता लेने वाले आशार्थियों से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ कार्यालयों में अनियमितताएं मिली, जिसके लिये

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया कि आशार्थियों से नियमित चार घण्टे अनिवार्य रूप से इन्टर्शिप करवाते हुये उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जाए तथा आशार्थियों को देना सुनिश्चित करें। साथ ही आशार्थियों द्वारा योजना के दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने व अनुपस्थित रहने पर उनकी सूचना जिला रोजगार कार्यालय को मेल द्वारा भिजवाए ताकि ऐसे आशार्थियों पर उचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी, ई-मित्र की संलिप्तता पायी जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिये मामला उच्च अधिकारियों और जिला कलक्टर को भेजा जाएगा।

## दरीबा मे विशाल रक्तदान शिविर में 558 यूनिट रक्तदान हुआ



बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आरम्भ सगठन मेहन्दुरिया के तत्वावधान में छठवा विशाल रक्तदान शिविर शुक्रवार को दरीबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में आयोजित हुआ जिसमें 558 यूनिट रक्त दान हुआ मानद सचिव बृजलाल कुमावत ने बताया कि विशाल स्वैच्छक रक्तदान शिविर जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा की प्रेरणा एवं चेरमैन कुलदीप शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया शिविर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा का महत्वपूर्ण योगदान रहा

। 60 व्यक्तियों ने जरूरत पड़ने पर रक्तदान करने का संकल्प व्यक्त किया। शिविर में आर. के. राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक शिविर प्रभारी डॉ. रेखा सालवी, महेश शर्मा नर्सिंग ऑफिसर, तकनीशियन युगल किशोर सरगार, राधेश्याम सुखवाल, रमेश सुथार पवन जाटव, अर्जुन यादव, रमेश दाधिच, रमेश आमेटा, चन्दा स्वर्ण कार, सुनिता आमेटा,किरण चौधरी, नानालाल चांवरिया, व सरल ब्लड बैंक व महाराणा भोपाल सरकारी अस्पताल उदयपुर से डॉ सुरेश डांगी, डॉ शील प्रभा, डॉ सावली, डॉ मानवेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह, ज्योति आमेटा, दीक्षा, हिमानी, सुर्या,मनोहर लाल मीणा, नन्दन

पटेल तथा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के मानद बृजलाल कुमावत संयुक्त सचिव,दीपवद गाडरी संयुक्त सचिव वाईस चेरमैन सी.पी. व्यास, देवीलाल साहु, शब्बीर हुस्सेन बोहरा, प्रकाश कोठारी, गोपाल लाल सरगार,प्रह्लाद राम मुदडा, हर्ष वर्धन सिंह भाटी आदि चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ तथा समाजसेवीयों ने शिविर में बेबादी प्रवक्ता सुरेश भाट ने बताया कि शिविर का प्रारंभ शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक चला जिसमें प्रथम बार रक्तदाताओं में ग्रामीणों के साथ माइंस कर्मचारी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया।

## शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में होंगे विकास के कई आयाम स्थापित : रामसहाय वर्मा

बढ़ता राजस्थान

निवाई (का.स.)। कृषि मंडी के पीछे स्थित बैरवा मोहल्ला में विधायक रामसहाय वर्मा ने द्यूखवेल के कार्य का विधिवत पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया। विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि द्यूखवेल लगने से कालोनीवासियों को पानी की समस्या निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कई आयाम स्थापित किए जाएंगे। जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बैरवा मोहल्लावासियों ने वर्षों से चली आ रही जल समस्या के समाधान के लिए विधायक रामसहाय वर्मा का आभार व्यक्त करते हुए माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष



दिलीप इसरानी, पार्षद नितिन छाबड़ा सहित कई कालोनीवासी मौजूद थे।

## पुलिस ने दिन दहाड़े हो रही चोरियों का किया खुलासा, आरोपियों से पूछताछ जारी

बढ़ता राजस्थान

लाखेरी(नि.स.)। शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक जिला बूंदी ने शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरियों की घटना को गंभीरता से लेते हुये चोरों को पकड़ने हेतु टीम गठित करने के निर्देश दिए। जिस पर थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा ने टीम गठित कर चोरों की घटना में लिप्त आरोपियों की तलाश

शुरू की। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम ने कई जगह दबिश दी तथा सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी सहायता के आधार पर दो आरोपियों अर्जुन नायक पुत्र किशन लाल जाती नायक 27 निवासी करवर, वाई न.11 थाना करवर व शाहरुख उर्फ बाउजी पुत्र नूर मोहम्मद जाति लुहार 28 निवासी बस स्टैंड करवर, थाना करवर जिला बूंदी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि शहर में लगातार दिन दहाड़े सुने मकानों में चोरियों की शिकारत पर अनुसंधान

करते हुए तथा शहर के साई जी के तकिर के समीप निवासी सोमेश पुत्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोटा, बूंदी के कई थानों में आपराधिक, नकबजनी सहित अन्य कई मामले दर्ज है। पुलिस आरोपियों से चोरी गए सामानों की जब्तों के लिए पूछताछ कर रही है।

लाखेरी(नि.स.)। शुक्रवार को बेरोजगार राजस्थान प्रेक संघ ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी भवान सिंह को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम अटल प्रेक भती को लेकर तीन सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटलबिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के दौरान की गई अटल प्रेक भती की घोषणा से राजस्थान प्रेक संघ में हर्ष की लहर व्याप्त है। ज्ञापन में लोक शिक्षा प्रेक को न इस प्रेक भती में आवेदन हेतु तीन सूत्रीय मांग की। इन मांगों में प्रेक को न 31 मार्च 2018 तक कार्य कर रहे प्रेक को आयु एवं योग्यता में छूट देने, समस्त प्रेक को के वयन में स्थानीय बाध्यता को समाप्त करने तथा भती को जिला स्तर पर आवेदन करवाने की मांग की। इस दौरान संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

# इन कारणों से बढ़ सकती है पेट की गर्मी

अक्सर लोगों के गलत खानपान और लाइफस्टाइल तरीकों के कारण पेट में जलन और गर्मी की दिक्कत हो सकती है। पेट की गर्मी के कारण आपको खाने के पाचन में दिक्कत आ सकती है, साथ ही पेट में जलन, सूजन और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल पेट में गर्मी इसलिए महसूस होती है कि जब हम कुछ गलत खा लेते हैं, तो इससे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है और इसके कारण अपच, एसिडिटी और कब्ज की परेशानी हो सकती है। इन चीजों का असर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। साथ ही पेट की गर्मी के कारण आपको पसीना अधिक आ सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन में भी जलन और रैशेज हो सकते हैं।



## पेट की गर्मी के कारण

- ज्यादा मसालेदार खाना का सेवन करना।
- बहुत अधिक नॉनवेज खाना।
- शराब और धूम्रपान करना।
- हाई पावर की दवाओं का अधिक सेवन करना।
- समय पर खाना न खाना या लंबे समय तक भूखा रहना।
- ज्यादा चाय या कॉफी पीना।
- इसके अलावा फूड एलर्जी या खाने की गलत चीजों के कॉम्बिनेशन के कारण।
- पानी की कमी के कारण भी आपके पेट में गर्मी महसूस हो सकती है।
- आंखिली खाना खाने के कारण भी आपके पेट में जलन हो सकती है।

## इन तरीकों से पाएँ पेट की गर्मी से छुटकारा

**पुदीना पानी** : पुदीना पानी पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। यह पेट की गर्मी को कम करता है। साथ ही पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। पुदीने के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी व औषधीय गुणों के कारण पेट में जलन नहीं होती है। इसके अलावा यह पेट की सूजन को भी कम कर सकता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम और पाचन तंत्र मजबूत होता है।

**सौंफ** : सौंफ की तासीर काफी ठंडी होती है, जो पेट की गर्मी को शांत करने में सहायक साबित हो सकता है। भोजन के बाद सौंफ का सेवन करने से पेट की जलन, गैस, गर्मी आदि शांत होती है। आप चाहें तो सुबह उठकर सौंफ का पानी पी सकते हैं। इसके लिए आप रात को ही सौंफ भिगोने के लिए रख दें। इससे आपको ठंडक का एहसास होता है।

**इलायची** : इलायची की तासीर भी ठंडी होती है। इसका सेवन आप चाय या खाने में कर सकते हैं। पेट की गर्मी दूर करने के लिए आप इलायची और मिश्री का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पानी का

सेवन भी कर सकते हैं। इसके सेवन से पेट की गर्मी, जलन और एसिडिटी दूर हो सकती है।

**दही** : पेट की गर्मी को दूर करने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके आंत को स्वस्थ रखते हैं और पाचन तंत्र भी सही रखते हैं। इसके अलावा इससे आपका मूड भी सही रहता है।

**मेथी** : पेट की गर्मी को शांत करने के लिए आप मेथी के बीजों से तैयार ठंडे पानी का सेवन कर सकते हैं। इससे पेट की गर्मी से तुरंत आराम मिल सकता है। इस पानी को तैयार करने के लिए आप एक गिलास पानी में

मेथी को डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। अब इस पानी में शहद डालकर इसे पीएं।

इसके अलावा मेथी के बीजों को पानी में उबालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दें। बाद में इसका सेवन करें। इससे भी काफी राहत मिल सकती है।

**एलोवेरा** : एलोवेरा भी पेट की गर्मी को शांत करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए आप एलोवेरा की ताजी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं।

## याददाश्त और फोकस के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी खास है अखरोट

इसे खाने से आपको होंगे ये फायदे



क्या आपको वह समय याद है जब आप बच्चे थे और आपकी मां आपको हर सुबह भीगे हुए बादाम और अखरोट खिलाती थीं? बेहतर याददाश्त और समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पर क्या आप जानते हैं कि वॉलनट या अखरोट न सिर्फ मस्तिष्क बल्कि हर अंग के लिए फायदेमंद है। इतना ही नहीं यह आपको हेल्दी ग्लो और पर्लॉलेस स्किन भी दे सकता है।

## स्किन के लिए सुपरफूड है अखरोट :

अखरोट स्किन के लिए गुणों का खजाना है। इसमें मौजूद मोनोअनसेचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड वसा का एक समृद्ध स्रोत है, जो इसे हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाता है। ये ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। अखरोट में कार्ब्स की मात्रा कम होती है, जो उन्हें रोजाना खाने के लिए भी फायदेमंद बनाता है। यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो फाइबर से भरपूर है। साथ ही बेहतर पाचन और मल त्याग में मदद करता है। विटामिन ई, बी6, फोलेट और फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होने के कारण अखरोट स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।

## समय से पहले एजिंग होने से रोकता है :

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी से भरपूर, अखरोट आपकी त्वचा को पर्यावरणीय कारकों जैसे कि धूप, गंदगी, प्रदूषण और अन्य अशुद्धियों से बचाने में मदद करते हैं। यह बदले में त्वचा की क्षति और समय से पहले ठीक लाइनों और झुर्रियों को उपस्थिति को रोकता है। विटामिन ई की उपस्थिति आपकी त्वचा को तीव्रता से हाइड्रेट करती है और आपकी त्वचा को अधिक युवा रखने के लिए कोलेजन उत्पादन को बढ़ाती है।

## काले घेरे कम करता है :

हमारी व्यस्त जीवन शैली, तनाव, अनियमित नींद के पैटर्न और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण और सूजी हुई आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो ही जाता है। लेकिन अखरोट के गुण तनाव को कम करने में मदद करते हैं और आपकी आंखों की चमक बढ़ाता है। समय के साथ अखरोट का तेल काले घेरे कम करता है।

## त्वचा को मॉइस्चराइज और चमकदार बनाता है :

अखरोट अविश्वसनीय मॉइस्चराइजिंग और पौष्टिक गुणों से भरे हुए हैं। अपने चेहरे और शरीर पर अखरोट के तेल की मालिश करने से आपकी त्वचा को हाइड्रेट और कंडीशन करने के लिए आपकी त्वचा को अत्यधिक मॉइस्चराइज और कंडीशन किया जाता है। विटामिन बी5 और ई जैसे पोषक तत्व निशान, हल्के धब्बे और रूखी त्वचा को कम करने में मदद करते हैं और वे तीव्र नमी भी प्रदान करते हैं। आपकी त्वचा को वास्तव में नरम और चमकदार दिखने के लिए सभी गुण एक साथ आते हैं।

## एक बेहतरीन एक्सफोलिएट है :

एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई जैसे अवयवों से समृद्ध, अखरोट समय के साथ मृत त्वचा कोशिकाओं को पुनः जीवित करता है। तेल, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को आपके छिद्रों से हटा कर बंद होने से रोकता है। यह मुहासों को भी रोकता है और आपकी त्वचा को स्वस्थ, क्लीयर और साँपट रखता है।



## अष्टांग नमस्कार योग के फायदे और करने का तरीका

स्वस्थ और खुश रहने के लिए योग करने के कई फायदे हैं। इससे आप न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि तनाव को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। रोज सुबह उठकर योग करने से आपको दिनभर अपना काम करने में मन लगता है। ऐसा ही एक योग है अष्टांग नमस्कार योग। इस योगासन को करते समय शरीर के कुल आठ अंग भूमि को स्पर्श करते हैं। इसलिए इस आसन को अष्टांग या आठ अंगों से किया जाने वाला नमस्कार भी कहा जाता है। इससे आपके पूरे शरीर में लचीलापन बना रहता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसके अलावा अष्टांग नमस्कार योग करने से आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है।

## अष्टांग नमस्कार योग के फायदे

- अष्टांग नमस्कार योग का अभ्यास करने से आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है और साथ ही रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे शरीर की मांसपेशियों में संतुलन बना रहता है। साथ ही इससे मसल्स एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा यह मसल्स को टोन बनाता है।
- अष्टांग नमस्कार योग आपके अंगों को मजबूत बनाता है। साथ ही इसे हाथ, पैर, घुटने, हिप्स और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही आपकी बॉडी सुईल होती है।
- इस योगासन के अभ्यास से आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है और साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिलती है।
- शारीरिक संतुलन के लिए भी आप अष्टांग नमस्कार योग का अभ्यास कर सकते हैं।

- इस योगासन का अभ्यास करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है और साथ ही इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

## अष्टांग नमस्कार योग करने का सही तरीका

- सबसे पहले योग मैट पर पेट के बल लेटे जाएं। फिर दोनों हाथ कमर के पास ले जाएं।
- हाथों को पसलियों के पास ले जाएं और गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़ें।
- इसके बाद हथेलियों के बल ऊपर उठने की कोशिश करें।
- इस दौरान कोशिश करें कि आपके दोनों पैर, घुटने, हथेलियां, सीना और ठोड़ी जमीन को छूते रहें।
- योगासन करते समय आपके सभी अंग हवा में रहेंगे।
- अपने हिप्स और पेट वाले हिस्से को हल्का सा उठाकर रखने की कोशिश करें।
- अभ्यास के दौरान सांस को रोककर रखेंगे और फिर सांस को

- खींचते हुए सामान्य हो जाएंगे।
- फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं।

## सावधानियां

- अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या है, तो इस योगासन का अभ्यास न करें।
- किसी तरह की गंभीर बीमारी या समस्या होने पर भी इस आसन को बिल्कुल न करें।
- गर्दन में दर्द होने पर भी आपको अष्टांग नमस्कार योग नहीं करना चाहिए।
- हाई ब्लड प्रेशर या हृदय समस्याओं में भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
- घुटने में दर्द होने पर दीवार के सहारे ही अभ्यास करें।
- इसके अलावा बिना ट्रेनर के अष्टांग नमस्कार योग का अभ्यास न करें।



## दूध में शहद मिलाकर पिएं महिलाएं, दूर होंगी कई समस्याएं

जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आती है, तो दूध और शहद दोनों का ही सेवन उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी से भरपूर होता है। वहीं शहद को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। साथ ही शहद में शरीर के लिए जरूरी लगभग सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हम सभी दूध और शहद का अलग-अलग सेवन करते हैं।

## त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है

दूध और शहद का कॉम्बिनेशन त्वचा, बालों के साथ ही नाखूनों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। शहद में रोगाणुरोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। दूध में शहद मिलाकर पीने से मुंहासे, दाग-धब्बे, बालों का झड़ना रोकना और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

## पीसीओएस में मददगार है


पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है। दूध और शहद पीने से सूजन को कम करने और हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे अनियमित पीरियड्स, पीरियड क्रैम्प्स, चेहरे पर अनचाहे बाल, और मुंहासों को कम करने में भी मदद मिलती है।

## पीरियड क्रैम्प्स से राहत मिलती है

पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाओं को गंभीर दर्द और एंटेन का सामना करना पड़ता है। शहद में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन से लड़ने में मदद करते हैं और दर्द को कम करने के लिए एक दवा के रूप में काम करते हैं। आप पीरियड्स के दौरान एक गिलास दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी।

## पीरियड्स रेगुलर होते हैं

वर्तमान समय में ज्यादातर महिलाएं अनियमित पीरियड्स की समस्या से परेशान हैं। अध्ययन में पाया गया है कि एक चम्मच शहद का रोजाना कुछ हफ्तों तक सेवन करने से अनियमित पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद मिलती है। ऐसे में दूध में शहद मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।



## प्रेगनेट महिलाओं के लिए फायदेमंद है

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गैस्ट्रिक समस्याएं, अपच, कब्ज और मतली जैसी समस्याएं सबसे आम हैं। इस तरह की समस्याओं में दूध में शहद मिलाकर पीने से राहत मिलती है। दूध और शहद में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जिससे यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।

शाह व फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक आयोजित

## देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है : अमित शाह



बढ़ता राजस्थान

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना जरूरी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों के अनुपूर एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रासिक्यूरेशन की व्यवस्था बनाए।

## मौसम : राजस्थान में पारा 33 डिग्री सेल्सियस पार

बढ़ता राजस्थान

**जयपुर।** राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा है। बाड़मेर-जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने लगा है। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों के साथ आमजन की सेहत पर भी पड़ने लगा है। वायल और मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की ओर बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। सबसे ज्यादा गर्म दिन कल बाड़मेर जिले में का रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर में कल अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 30.1, फालोदी में 30.4, डूंगरपुर में 30, जालोर में 32.1 और बीकानेर में 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में कल दिनभर तेज गर्मी रही। यहां कल अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

## सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

**पूर्व ट्रेनी आईएस पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप; 18 मार्च को अगली सुनवाई**

बढ़ता राजस्थान

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व ट्रेनी आईएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 मार्च तक बढ़ा दी। कोर्ट ने 15 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जस्टिस बीवी नगरावा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कोर्ट में बताया कि हमलोग जांच में सहयोग कर रही हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया गया

समय भी बढ़ा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पलटा पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का 23 दिसंबर 2024 का आदेश पलट दिया था।

पूजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी है जो ट्रायल शुरू होने पर पूजा के खिलाफ प्रयोग हो सकते हैं। इस पर बेंच ने यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था।

## दिल्ली में 19-20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव

**भाजपा की बैठक जारी; प्रवेश वर्मा बोले- यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख एजेंडे में**

बढ़ता राजस्थान

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। आज दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक भी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, 48 विधायकों में से 9 नाम छूटे गए हैं। जिनमें से मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं। इसके बाद ही दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान होने की संभावना है। सीएम के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक प्रवेश वर्मा ने कहा- भाजपा सरकार के प्रमुख एजेंडे में विकास, साफ पानी की सप्लाई, साफ हवा जैसे मुद्दे हैं। इसके साथ ही यमुना की सफाई भी शामिल है। पार्टी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और

नदी को निर्मल करने का अपना वादा पूरा करेगी। 8 फरवरी को आए दिल्ली चुनाव के रिजल्ट में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तरह कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बर्बाद हैं, वहीं, आप को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आप का स्ट्राइक रेट 31% रहा।

18-19 फरवरी को विधायक दल की बैठक भाजपा विधायक और राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 18 या 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी।

लक्ष्मी नगर सीट से दूसरी बार विधायक बने अभय वर्मा ने कहा- दिल्ली के सीएम पद के लिए कोई होड़ नहीं है।



हमारी पार्टी में विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री या विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाता है। वहीं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री

निर्वाचित विधायकों में से होगा और इस बारे में फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा, जो पीएम मोदी के लौटने के बाद होगा।

## स्व. श्री भंवराराम कड़वा की प्रतिमा अनावरण

# हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली और उन्नति सुनिश्चित कर रही राज्य सरकार : शर्मा

बढ़ता राजस्थान

**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की सेवा को अपना ध्येय मानकर युवा, किसान, महिलाओं एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में विकास और सेवा की भावना के साथ हमारी सरकार हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली और उन्नति सुनिश्चित कर रही है। श्री शर्मा शुक्रवार को कुचामनसिटी में स्व. श्री भंवराराम कड़वा के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सरपंच व जनसेवी स्व. श्री भंवराराम कड़वा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डीडवना-कुचामन की धरा संतों और समाजसेवियों की भूमि है। यहां जन्म लेने वाले स्व. श्री भंवराराम जी का पूरा जीवन जनसेवा एवं सामाजिक सेवा को समर्पित रहा तथा उनके द्वारा पल्लवित श्री नारायण नर सेवा संस्थान आज भी समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

### एक साल में 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन-

श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हमने पिछले एक वर्ष में समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए हैं। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने हर घर जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को अटकवाए रखा। हमारी सरकार के आग्रह पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की अगुआई को बढ़ावा दिया है।

### 60 हजार युवाओं को दी सरकारी नौकरियां, 81 हजार पदों का परीक्षा कलेण्डर जारी-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में अब तक लगभग 60 हजार सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी हैं और जुलाई माह तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। साथ ही, नए साल के आरंभ के साथ हमने वर्ष 2025 में 81 हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजर्जिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट संधित का आयोजन किया, जिसके जरिये प्रदेश में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए।

### राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

## राष्ट्रपति ने हर महिला से साहस जुटाने, बड़े सपने देखने और इन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और क्षमता का उपयोग करने का आग्रह किया



बढ़ता राजस्थान

**बेंगलुरु (एजेंसी)।** राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत की नारी शक्ति आकांक्षा, उपलब्धि और योगदान के लिए आगे बढ़ रही है। चाहे विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो, कला हो या संस्कृति हो, हमारी बहनें और बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अपना सिर ऊंचा कर रही हैं। वे अपने परिवार, संस्थानों और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। मानसिक रूप से मजबूत हुए बिना बाधाओं को तोड़ना और रूढ़ियों को चुनौती देना संभव नहीं है।

उन्होंने प्रत्येक महिला से साहस जुटाने, बड़े सपने देखने और इन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और क्षमता का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य की ओर उनका हर छोटा कदम, विकसित भारत की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम तकनीकी व्यवधान के युग में हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति ने हमें कुछ मायनों में बेहतर जीवन स्तर दिया है। ऐसी प्रतिस्पर्धी दुनिया में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे मानवीय मूल्य बरकरार रहें। वास्तव में, प्रत्येक

मनुष्य को करुणा, प्रेम और एकता के मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सचेत रूप से अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

यहीं पर महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाओं में करुणा के माध्यम से नेतृत्व करने की विशेष क्षमता होती है। वे व्यक्ति से परे देखने और परिवारों, समुदायों और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर रिश्तों की भलाई के लिए काम करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाली सभी महिलाएं ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ सामने आएंगी जिन्हें लोग अपने जीवन और अपने आस-पास के लोगों के जीवन को और अधिक सुंदर तथा शांतिपूर्ण बनाने के लिए आत्मसात कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए हमारे बच्चों की शिक्षा से बड़ा कोई निवेश नहीं है। सही मार्गदर्शन और सहयोग के साथ, बच्चे हमारे राष्ट्र की यात्रा में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया।



### प्रदेश में खोले गए 1 हजार नए आंगनवाड़ी केंद्र

श्री शर्मा ने कहा कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने लाडी प्रीत्साहन योजना शुरू की है। प्रदेश में एक हजार नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को पोषिक दूध उपलब्ध कराने के लिए अमृत आहार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अन्त्येय के संकल्प के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आस-पास के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं।

### डीडवना-कुचामन जिले में 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार डीडवना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर लागू कर रही है। डीडवना-कुचामन जिले में लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही, डीडवना-कुचामन जिले की बजट घोषणाओं में से 78 प्रतिशत घोषणाओं में स्वीकृत जारी करने के साथ ही भूमि आवंटन से संबंधित सभी कार्यों में 100 प्रतिशत भूखण्ड आवंटित कर दिए गए हैं।

### हमारी सरकार ने किसान कल्याण का रखा पूरा ध्यान-

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास एवं किसान कल्याण के लिए हमने पहले 1 साल में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। राज्य सरकार प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में राम जलसेतु लिंक परियोजना (पार्वती-कालीसिंध-चंबल-इंदारसीपी), शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता, दक्षिणी राजस्थान के लिए देवास परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं माही परियोजना को भी सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान जल के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार किसानों का दर्द समझती है और उन्हें सस्ती एवं सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

## संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 आयोजित ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी मिलकर प्रयास करें, पेड़ लगाएं, स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग हो : राज्यपाल

बढ़ता राजस्थान

**जयपुर।** राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि जलवायु संकट के इस दौर में अधिकाधिक पेड़ लगाना हमारी प्राथमिकता बने। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण का मूल मंत्र यही है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। उतनी ही ऊर्जा का उपयोग करें जिससे काम चल सके। उन्होंने पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ऑयल का उपयोग कर उत्सर्जन और तेल आयात कम किए जाने के प्रयासों की भी आवश्यकता जताई।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य और केंद्र सरकारों की अनुदान योजनाओं का अधिकाधिक प्रयास किया जाए। बागडे शुक्रवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा आयोजित संरक्षण क्षमता सक्षम 2025 के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान में कुएं, बावड़ियों और पेड़ लगाने की रही परंपरा को चर्चा करते हुए कहा कि धनी वही है जो



अधिक से अधिक पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सोचात दे। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असक्षम है। हम वर्तमान में कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत से भी ज्यादा आयात करते हैं। इससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है।

## बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र मुद्रण के लिए संपर्क करें।

**उच्च क्वालिटी का कागज एवं स्याही**

**कलर एवं ब्लैक मुद्रण** **किफायती मुद्रण लागत**

**Printing Press**

- Hameedpura Road Khandwa, Newai, Tonk, Rajasthan - 304021
- Office**
- Badhata Rajasthan, Near Rajkiya Mahavidyalaya, NH-12, Bypass Newai, Tonk, Rajasthan - 304021 (M) +91-9214048888, Phone No. - 01438-223201, 02, 03
- 185/116, "Pratiksha", Sector-18, Pratap Nagar, Sanganeer, Jaipur - 302033 (M) +91-9414242258, Phone No. - 0141-2796795

Email: badhatarajasthanprintingpress@gmail.com